

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 28—दिसम्बर 4, 2015 (अग्रहायण 7, 1937)

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 28—DECEMBER 4, 2015 (AGRAHAYANA 7, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 नवम्बर 2015

सेना शाखा

सं. 281, दिनांक 28 अक्टूबर 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

पिछली तिथि से वरीयता

आई सी—51495ए पूर्व लैफ्टिनेन्ट कर्नल अबजीत सिंह रंधावा अब टी ए—42912ए लैफ्टिनेन्ट अबजीत सिंह रंधावा को प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक 27 फरवरी 2014 से लैफ्टिनेन्ट के पद पर इन्फैन्ट्री (टी ए) में कमीशन प्रदान किया जाता है । नियमित सेना की 14 साल 01 माह तथा 21 दिन (दिनांक 19 दिसम्बर 1992 से 09 फरवरी 2007) की सेवा के लिए उन्हें प्रादेशिक सेना में 06 जनवरी 2000 से लैफ्टिनेन्ट के पद पर वरीयता प्रदान की जाती है। पिछली तिथि से वरीयता के कारण उन्हें दिनांक 27 फरवरी 2014 से मेजर के पद पर पदोन्नत किया जाता है । उन्हें प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 के पैरा 25 (ए) तथा 38(ए) में निहित प्रावधान (संशोधित संस्करण 1976), ए वी एस सी समिति प्रतिवेदन के अनुसार भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

के पत्र सं. 18(1)2006/डी (जी एस-1) दिनांक 18 दिसम्बर 2006 द्वारा यथा संशोधित, के अन्तर्गत वेतन एवं पदोन्नति में वार्षिक बढ़ोत्तरी हेतु सैद्धान्तिक वरीयता के साथ दिनांक 06 जनवरी 2004 से कैप्टन, 06 जनवरी 2008 से मेजर तथा 06 जनवरी 2015 से लैफ्टिनेन्ट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

भारत भूषण जोशी
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 282, दिनांक 29 अक्टूबर 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

श्री कमलेश कुमार को संनिर्माण अभियन्ता, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 26.08.2013 (पूर्वाह्न) से पै बैंड 3 में रू0 15600—39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रू0 6600 पर।

श्री प्रशांत भगवान शिंदे को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 21.07.2015 (पूर्वाह्न) से पै बैंड 2 में रू0 9300—34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रू0 4600 पर।

श्री श्रीधर पलेदा को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 10.07.2015 (पूर्वाह्न) से पै बैंड 2 में रू0 9300—34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रू0 4600 पर।

श्री दिपेश चन्दा को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 03.08.2015 (पूर्वाह्न) से पै बैंड 2 में रू0 9300—34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रू0 4600 पर।

श्री डोडी जे के चक्रवर्ती को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 19.08.2015 (पूर्वाह्न) से पै बैंड 2 में रू0 9300—34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रू0 4600 पर।

श्री सुब्राता कुमार दास को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 24.02.2015 (पूर्वाह्न) से पै बैंड 2 में रू0 9300—34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रू0 4600 पर।

श्री गणवीर लक्ष्मी कांत पारसराम को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी—II, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 28.08.2015 (पूर्वाह्न) से पै बैंड 3 में रू0 15600—39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रू0 5400 पर।

राजीव रंजन सिन्हा
उपनिदेशक (कार्मिक एए2)

सेना शाखा

सं. 283, दिनांक 30 अक्टूबर 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

प्रादेशिक सेना
प्रादेशिक कमीशन

ले. कर्नल बनाया जाता है

मेजर डेविड टी जमीर	(टीए-42454)	(इन्फैन्ट्री)	26 अप्रैल 2015
--------------------	-------------	---------------	----------------

कैप्टन बनाया जाता है

ले. एम ख्वाजा मोहिदीन	(टीए-42754)	(ए0एस0सी0 टीए)	02 अगस्त 13
ले. अरुण कुमार पहाडिया	(टीए-42772)	(इन्जीनियर टीए)	03 जुलाई 13
ले. आनन्द शंकर	(टीए-42773)	(इन्जीनियर टीए)	09 जुलाई 13
ले. राजीब फुकन	(टीए-42552)	(इन्फैन्ट्री)	24 जनवरी 2007
ले. देवांकुर	(टीए-42810)	(इन्फैन्ट्री)	01 जून 2015
ले. आनन्द कुमार मिश्रा	(टीए-42811)	(इन्फैन्ट्री)	04 जून 2015
ले. विनोद कुमार शशीधरन	(टीए-42812)	(इन्फैन्ट्री)	17 जून 2015
ले. मनीष वर्मा	(टीए-42814)	(इन्फैन्ट्री)	13 मई 2015
ले. हिमांशू रस्तोगी	(टीए-42815)	(इन्फैन्ट्री)	13 मई 2015

ले. रूप नाथा राय	(टीए-42816)	(इन्फैन्ट्री)	21 मई 2015
ले. नितेंद्र सिंह देवडा	(टीए-42817)	(इन्फैन्ट्री)	08 जुलाई 2015
ले. राहुल एस वखाडे	(टीए-42738)	(इन्फैन्ट्री)	27 अगस्त 2013

भारत भूषण जोशी
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 284, दिनांक 2 नवम्बर 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :-

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

जाट रेजिमेन्ट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार	प्रेम सिंह	(जेसी-490434 एम)	02 अगस्त 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	बिजेन्द्र सिंह	(जेसी-490556 डब्ल्यू)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	सुरेश कुमार	(जेसी-490465 एम)	08 अगस्त 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	सुभाष	(जेसी-490496 एम)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	नरेन्द्र कुमार	(जेसी-490482 एम)	17 अगस्त 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	परमजीत सिंह	(जेसी-490524 एन)	19 सितम्बर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	मंगला राम	(जेसी-490584 एच)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	कुम्भा राम जाट	(जेसी-490652 एल)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	उदय सिंह	(जेसी-490623 डब्ल्यू)	21 अगस्त 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	बिरदी चन्द जाट	(जेसी-490658 एम)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	टीकमा राम चौधरी, सेना मेडल	(जेसी-490659 पी)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	खिरज पूनिया	(जेसी-490665 एच)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	राधे श्याम झाझरिया	(जेसी-490666 एल)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	देवी सिंह	(जेसी-490675 एम)	19 अगस्त 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	नेमी चन्द खालिया	(जेसी-490687 एफ)	14 अगस्त 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	देवी लाल	(जेसी-490696 एच)	01 अगस्त 2014

नायब सूबेदार	सुमेर सिंह	(जेसी—490688 के)	30 अगस्त 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	जितेन्द्र सिंह	(जेसी—490690 एफ)	16 सितम्बर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	दलबीर सिंह	(जेसी—490692 एम)	21 फरवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	श्याम सिंह भागोद	(जेसी—490766 डब्ल्यू)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	संतोख चन्द	(जेसी—490770 वाई)	02 सितम्बर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	जगदीश चन्द्र पूनिया	(जेसी—490786 के)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	अनिल कुमार	(जेसी—490779 एन)	22 सितम्बर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	श्रवण कुमार दीक्षित	(जेसी—490800 एल)	27 अगस्त 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	शमशेर सिंह	(जेसी—490791 पी)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	कुलदीप कुमार	(जेसी—490805 के)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	सुरेन्द्र सिंह	(जेसी—490813 एच)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	देवेन्द्र कुमार	(जेसी—490818 एफ)	04 अगस्त 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	भूपेन्द्र सिंह	(जेसी—490825 एक्स)	27 अगस्त 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	पन्ना राम	(जेसी—490312 एच)	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	सत नारायण	(जेसी—490313 एल)	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	विजेन्द्र कुमार	(जेसी—490415 एफ)	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	भूरा राम	(जेसी—490511 डब्ल्यू)	12 अप्रैल 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	राम अवतार लोयल	(जेसी—490517 एक्स)	14 अप्रैल 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	रघुवीर सिंह	(जेसी—490519 एच)	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	मदन लाल सारन	(जेसी—490535 ए)	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	केशव सिंह	(जेसी—490335 के)	01 मई 2013
नायब सूबेदार	रामबीर	(जेसी—490371 पी)	06 मई 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	मुनीष कुमार	(जेसी—490377 डब्ल्यू)	01 मई 2013
नायब सूबेदार	सत्य पाल	(जेसी—490551 एक्स)	01 मई 2013

नायब सूबेदार	हमबीर	(जेसी-490557 वाई)	01 मई 2013
नायब सूबेदार	हरि ओम	(जेसी-490573 डब्ल्यू)	01 मई 2013
नायब सूबेदार	चुतरा राम	(जेसी-490580 एम)	30 जुलाई 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	रतन सिंह	(जेसी-490604 एल)	04 जुलाई 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	सीता राम	(जेसी-490653 एन)	01 मई 2013
नायब सूबेदार	सुरेश कुमार	(जेसी-490678 ए)	03 मई 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	रघुवीर सिंह	(जेसी-490686 वाई)	24 मई 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	बलराज	(जेसी-490717 एन)	01 जून 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	राम किशन जाट	(जेसी-490263 एल)	01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	करतार सिंह	(जेसी-490314 एन)	10 सितम्बर 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	सुमेर सिंह	(जेसी-490404 पी)	02 सितम्बर 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	संजय कुमार	(जेसी-490452 पी)	01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	जेट मल जाट	(जेसी-490453 एक्स)	22 अक्टूबर 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	सत्यवान	(जेसी-490564 पी)	10 सितम्बर 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	ईश्वर सिंह	(जेसी-490577 एम)	14 अक्टूबर 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	चंदगी राम पूनिया	(जेसी-490590 डब्ल्यू)	02 सितम्बर 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	महेश कुमार पायल	(जेसी-490871 एम)	01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	सोदान सिंह	(जेसी-490315 डब्ल्यू)	01 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार	देवेन्द्र सिंह	(जेसी-490316 वाई)	01 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार	प्रमोद कुमार	(जेसी-490395 वाई)	01 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार	नांगराम भिंचर	(जेसी-490581 पी)	14 मार्च 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	पटेल सिंह	(जेसी-490591 वाई)	01 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार	गोपाल सिंह	(जेसी-490644 एम)	01 अक्टूबर 2013

नायब सूबेदार	विजय सिंह	(जेसी-490877 एन)	27 जनवरी 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	ओम प्रकाश	(जेसी-490878 डब्ल्यू)	25 फरवरी 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	सुरेन्द्र सिंह	(जेसी-490374 एच)	15 नवम्बर 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	सुभाष चन्द्र	(जेसी-490419 एक्स)	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	हनुता राम	(जेसी-490459 वाई)	29 नवम्बर 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	सुरेन्द्र कुमार	(जेसी-490488 एन)	05 नवम्बर 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	करम सिंह	(जेसी-490489 डब्ल्यू)	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	विजेन्द्र कुमार	(जेसी-490606 डब्ल्यू)	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	मंजीत सिंह	(जेसी-490613 एम)	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	ओम प्रकाश सिंह	(जेसी-490629 एक्स)	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	श्री चन्द	(जेसी-490619 एन)	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	धर्मवीर सिंह	(जेसी-490620 एच)	01 दिसम्बर 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	कुलदीप	(जेसी-490660 के)	24 फरवरी 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	दया नन्द	(जेसी-490663 एक्स)	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	अर्जुन सिंह	(जेसी-490887 एक्स)	21 जनवरी 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	राम गोपाल	(जेसी-490297 वाई)	20 जून 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	नरेन्द्र कुमार	(जेसी-490560 वाई)	07 जून 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	राजवीर	(जेसी-490617 एच)	01 जून 2013
नायब सूबेदार	राजवीर सिंह	(जेसी-490618 एल)	01 जून 2013
नायब सूबेदार	आसू राम	(जेसी-490373 ए)	01 जुलाई 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जून 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	राजपाल सिंह	(जेसी-490387 ए)	12 जुलाई 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	राजबीर सिंह	(जेसी-490405 एक्स)	01 जुलाई 2013

नायब सूबेदार	बुधा राम	(जेसी—490464 के)	06 अगस्त 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	भंवर लाल	(जेसी—490631 पी)	01 जुलाई 2013
नायब सूबेदार	बलराज	(जेसी—490751 एन)	07 अगस्त 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	ओम प्रकाश	(जेसी—490783 डब्ल्यू)	01 अगस्त 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	तारा चन्द पूनिया	(जेसी—490784 वाई)	01 अगस्त 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	विनोद कुमार	(जेसी—490812 ए)	01 अगस्त 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	राम बाबू	(जेसी—490632 एक्स)	01 अगस्त 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जुलाई 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	राजेन्द्र सिंह महला	(जेसी—490336 एम)	01 अगस्त 2013
नायब सूबेदार	सुखवीर सिंह	(जेसी—490360 एच)	04 अगस्त 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	सुभाष चन्द्र चौधरी	(जेसी—490396 एफ)	01 अगस्त 2013
नायब सूबेदार	नाथू राम	(जेसी—490406 ए)	08 अगस्त 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	मदन लाल	(जेसी—490476 वाई)	29 अगस्त 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	जयवीर	(जेसी—490527 एफ)	21 अगस्त 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	रामेश्वर लाल	(जेसी—490536 एच)	01 अगस्त 2013
नायब सूबेदार	महिपाल सिंह	(जेसी—490833 डब्ल्यू)	01 अगस्त 2013
नायब सूबेदार	राम कुमार	(जेसी—490856 एक्स)	31 अगस्त 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	मुकेश सिंह	(जेसी—490870 के)	01 अगस्त 2013
नायब सूबेदार	किशन सिंह	(जेसी—490534 एक्स)	13 सितम्बर 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अगस्त 2013 से दी जायेगी)			

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार	सुरेन्द्र सिंह	(सं. 3186606 एच अब जेसी—491363 एच)	12 सितम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जून 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	सुखवीर सिंह	(सं. 3185208 पी अब जेसी—491364 एल)	24 सितम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 अगस्त 2015 से दी जायेगी)			

हवलदार	श्री राम	(सं. 3185319 एम अब जेसी-491365 एन)	28 सितम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	जसविन्द्र सिंह	(सं. 3188696 एन अब जेसी-491366 डब्ल्यू)	12 सितम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	जय सिंह	(सं. 3188869 ए अब जेसी-491367 वाई)	21 सितम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	राकेश कुमार	(सं. 3189178 ए अब जेसी-491332 एच)	17 जून 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	दलीप सिंह	(सं. 2599281 डब्ल्यू अब जेसी-491333 एल)	04 जून 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 अप्रैल 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	मेघा राम सिंवर	(सं. 4076779 एन अब जेसी-491334 एन)	09 जून 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	प्रेम सिंह	(सं. 3188470 एच अब जेसी-491335 डब्ल्यू)	19 जून 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	विजय कुमार	(सं. 3187253 ए अब जेसी-491336 वाई)	01 जून 2015
हवलदार	सुशील कुमार	(सं. 3187327 के अब जेसी-491337 एफ)	11 जून 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	अजीत सिंह	(सं. 3185984 पी अब जेसी-491338 के)	11 जून 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	कुरडा राम	(सं. 3186276 पी अब जेसी-491339 एम)	01 जून 2015
हवलदार	मनवीर सिंह	(सं. 3186933 एन अब जेसी-491340 एफ)	17 जून 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	जय सिंह	(सं. 3186384 वाई अब जेसी-491341 के)	01 जून 2015
हवलदार	राज कुमार सिंह	(सं. 3187100 डब्ल्यू अब जेसी-491342 एम)	17 जून 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार लिपिक	दिलीप कुमार मण्डल	(सं. 3189111 एफ अब जेसी-491343 पी)	01 जुलाई 2015
हवलदार	मोहन लाल जाट	(सं. 3187147 एफ अब जेसी-491322 वाई)	29 मई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 अप्रैल 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	देब दान सिंह	(सं. 3192463 के अब जेसी-491323 एफ)	28 मई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अप्रैल 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	जहान सिंह	(सं. 3185333 वाई अब जेसी-491324 के)	28 मई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	अवदेश कुमार	(सं. 3186306 एफ अब जेसी-491325 एम)	28 मई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जायेगी)			

हवलदार	राम चन्द्र	(सं. 3188425 डब्ल्यू अब जेसी-491326 पी)	01 मई 2015
हवलदार	राम निवास	(सं. 3188444 एफ अब जेसी-491327 एक्स)	05 मई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	अजय सिंह	(सं. 3187200 एफ अब जेसी-491328 ए)	01 जून 2015
हवलदार	महेन्द्र सिंह	(सं. 3187336 एल अब जेसी-491329 एच)	02 जून 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	जय राम	(सं. 3187402 एच अब जेसी-491330 एक्स)	02 जून 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)			

नायब सूबेदार (संगीतकार) के रैंक में

हवलदार संगीतकार	जोध पाल सिंह	(सं. 3186608 एन अब जेसी-491331 ए)	08 जून 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)			

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार	महावीर सिंह	(सं. 3187491 एम अब जेसी-491298 एन)	01 अप्रैल 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	रामधन	(सं. 3187510 एम अब जेसी-491299 डब्ल्यू)	08 अप्रैल 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 फरवरी 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	ओम प्रकाश	(सं. 3187773 एल अब जेसी-491300 ए)	26 मार्च 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 फरवरी 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	सुखदेवा राम	(सं. 3187131 डब्ल्यू अब जेसी-491301 एच)	01 मार्च 2015
हवलदार	सतेन्द्र सिंह बांकुरा	(सं. 3201016 के अब जेसी-491302 एल)	15 अप्रैल 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	याद राम सिंह बरगोती	(सं. 3188590 एफ अब जेसी-491303 एन)	05 मार्च 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	बिल्लू कुमार	(सं. 3187659 एन अब जेसी-491304 डब्ल्यू)	24 अप्रैल 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	गोवर्धन सिंह	(सं. 3187940 डब्ल्यू अब जेसी-491305 वाई)	02 अप्रैल 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	भँवरा राम	(सं. 3187962 पी अब जेसी-491306 एफ)	02 अप्रैल 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	सुरेन्द्र सिंह	(सं. 3189694 पी अब जेसी-491307 के)	02 अप्रैल 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	महेश कुमार	(सं. 3188144 ए अब जेसी-491308 एम)	14 मई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी)			

हवलदार	सुलतान सिंह	(सं. 3188768 एम अब जेसी-491309 पी)	02 अप्रैल 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	राकेश कुमार	(सं. 3187738 एच अब जेसी-491310 के)	13 अप्रैल 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 मार्च 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	जयनारायण बागरिया	(सं. 3187800 के अब जेसी-491311 एम)	13 अप्रैल 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	देवेन्द्र सिंह	(सं. 3186478 डब्ल्यू अब जेसी-491312 पी)	10 अप्रैल 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	नेत्र पाल सिंह	(सं. 3188649 डब्ल्यू अब जेसी-491313 एक्स)	13 अप्रैल 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	दलबीर सिंह	(सं. 3189141 वाई अब जेसी-491314 ए)	04 अप्रैल 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	राजवीर	(सं. 3186205 एन अब जेसी-491315 एच)	01 मई 2015
हवलदार	मनोज कुमार	(सं. 3186331 ए अब जेसी-491316 एल)	01 मई 2015
हवलदार	गुलबीर सिंह	(सं. 3186411 एक्स अब जेसी-491317 एन)	01 मई 2015
हवलदार	लाला राम	(सं. 3186564 एफ अब जेसी-491318 डब्ल्यू)	01 मई 2015
हवलदार	हकीम सिंह	(सं. 3186935 वाई अब जेसी-491319 वाई)	01 मई 2015
हवलदार लिपिक	छोटे लाल	(सं. 3189038 एन अब जेसी-491320 एन)	01 अप्रैल 2015
हवलदार लिपिक	अविनाश कुमार	(सं. 3189070 एच अब जेसी-491321 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2015

मद्रास रेजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सुरेश कोलापुर	(जेसी 440616के)	26 फरवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 14 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार आर जया कुमार	(जेसी 440353डब्ल्यू)	17 दिसम्बर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 14 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार शेख महम्मद रफि	(जेसी 440775एफ)	18 दिसम्बर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 14 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार वेनुगोपाल सी	(जेसी 440328एक्स)	25 नवम्बर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 14 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार (लिपिक) नरेन्द्र सिंह	(जेसी 440714के)	13 नवम्बर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 14 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार बिजू भास्करण	(जेसी 440546डब्ल्यू)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार विकरमण नायर टी	(जेसी 440793के)	22 मार्च 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 14 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार ए बी प्रसाद	(जेसी 440903एन)	18 दिसम्बर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 14 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सी एन्टोनी राज	(जेसी 440540पी)	05 मई 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 14 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार (लिपिक) राकेश मोहन	(जेसी 440715एम)	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) सुदेश कुमार शर्मा	(जेसी 440734एक्स)	01 दिसम्बर 2014

नायब सूबेदार (लिपिक) मस्तान वल्ली शेख (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 15 से दी जायेगी)	(जेसी 440733पी)	27 मार्च 2015*
नायब सूबेदार (लिपिक) भुपती बाला (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 15 से दी जायेगी)	(जेसी 440735ए)	08 जनवरी 2015*
नायब सूबेदार (लिपिक) दीन दयाल (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 15 से दी जायेगी)	(जेसी 440736एच)	01 फरवरी 2015*
नायब सूबेदार सजीव टी वी (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जनवरी 15 से दी जायेगी)	(जेसी 440729एम)	05 मई 2015*
नायब सूबेदार सी आरोक्यदास (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 जनवरी 15 से दी जायेगी)	(जेसी 440464एन)	23 मार्च 2015*
नायब सूबेदार अन्बलगन आर (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 जनवरी 15 से दी जायेगी)	(जेसी 440597के)	09 फरवरी 2015*
नायब सूबेदार (लिपिक) विजय कुमार	(जेसी 440765एक्स)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार (लिपिक) अजीत कुमार बी टी (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 15 से दी जायेगी)	(जेसी 440766ए)	02 फरवरी 2015*
नायब सूबेदार (लिपिक) अजी कुमार जे	(जेसी 440768एल)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार (लिपिक) दिनेश कुमार सिंह	(जेसी 440809के)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार (लिपिक) एच आर रमेश	(जेसी 440810वाई)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार (लिपिक) एम ई मुतू	(जेसी 440819एन)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार चद्रन एस (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 15 से दी जायेगी)	(जेसी 440634एम)	01 मार्च 2015*
नायब सूबेदार(लिपिक) जी आरोक्यनाथन	(जेसी 440795पी)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार परशाराम यल्लुरकर (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 15 से दी जायेगी)	(जेसी 440902एल)	24 मार्च 2015*
नायब सूबेदार राजा पी (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी)	(जेसी 440627डब्ल्यू)	27 फरवरी 2015*
नायब सूबेदार (लिपिक) कनकाराज के	(जेसी 440808एफ)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार (लिपिक) ए मुतू बाला मुरुगन	(जेसी 440767एच)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार (लिपिक) अश्वनि कुमार श्रीवास्तव (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 15 से दी जायेगी)	(जेसी 440794एम)	18 फरवरी 2015*
नायब सूबेदार मलाया पडाला (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 15 से दी जायेगी)	(जेसी 440956एम)	13 जून 2015*
नायब सूबेदार सुनील कुमार टी डी	(जेसी 440693वाई)	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार कामेश्वरा राव पेदिनी (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 15 से दी जायेगी)	(जेसी 440907के)	24 मार्च 2015*
नायब सूबेदार डी शिवा कुमार (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 मार्च 15 से दी जायेगी)	(जेसी 440694एफ)	11 मई 2015*
नायब सूबेदार साजी पी	(जेसी 440567एम)	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार बासप्पा पाटील (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 15 से दी जायेगी)	(जेसी 440791वाई)	05 मई 2015*
नायब सूबेदार राजु जोसफ पी	(जेसी 440492ए)	01 अप्रैल 2015

नायब सूबेदार डोवकारी अपन्ना (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना	(जेसी 440753एच) ज्येष्ठता 01 अप्रैल 15 से दी जायेगी)	05 मई 2015*
नायब सूबेदार रुपेन्द्र कुमार, सेना मेडल	(जेसी 440479डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार बेन्नी फिलिप	(जेसी 440617एम)	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार विनोद कुमार एन	(जेसी 440624एच)	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार (लिपिक) के वेंकटाचलम	(जेसी 440833ए)	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार (लिपिक) एस मोहन कुमार	(जेसी 440820एच)	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार टी पी सुरेश कुमार	(जेसी 440805एन)	03 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार पेरुमाल एस (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना	(जेसी 440813एम) ज्येष्ठता 08 अप्रैल 15 से दी जायेगी)	18 मई 2015*
नायब सूबेदार धानाजी (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना	(जेसी 440815एक्स) ज्येष्ठता 12 अप्रैल 15 से दी जायेगी)	20 मई 2015*
नायब सूबेदार प्रकाश चन्द्रा सोमन (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना	(जेसी 440420डब्ल्यू) ज्येष्ठता 13 अप्रैल 15 से दी जायेगी)	11 जून 2015*
नायब सूबेदार एस पी नुर मोहम्मद (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना	(जेसी 440511ए) ज्येष्ठता 30 अप्रैल 15 से दी जायेगी)	23 मई 2015*
नायब सूबेदार पी रामचन्द्रन	(जेसी 440678के)	01 मई 2015
नायब सूबेदार कुमार आर	(जेसी 440696एम)	01 मई 2015
नायब सूबेदार एन जयतिलगन	(जेसी 440598एम)	01 मई 2015
नायब सूबेदार शिवकुमार एन (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना	(जेसी 440571पी) ज्येष्ठता 01 मई 15 से दी जायेगी)	11 मई 2015*
नायब सूबेदार एम आरुमुगम (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना	(जेसी 440572एक्स) ज्येष्ठता 01 मई 15 से दी जायेगी)	11 मई 2015*
नायब सूबेदार आर सुबास चन्द्र बोस (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना	(जेसी 440773डब्ल्यू) ज्येष्ठता 01 मई 15 से दी जायेगी)	13 मई 2015*
नायब सूबेदार आई राधाकृष्णन (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना	(जेसी 440526एच) ज्येष्ठता 01 मई 15 से दी जायेगी)	16 मई 2015*
नायब सूबेदार रेड्डी श्रीनिवासा राव (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना	(जेसी 440741एन) ज्येष्ठता 01 मई 15 से दी जायेगी)	21 मई 2015*
नायब सूबेदार सजेश वी वी (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना	(जेसी 440779एक्स) ज्येष्ठता 01 मई 15 से दी जायेगी)	20 मई 2015
नायब सूबेदार जय राव बोजा (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना	(जेसी 440772एन) ज्येष्ठता 01 मई 15 से दी जायेगी)	11 मई 2015*
नायब सूबेदार एलेज़ेंडर चेरियन (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना	(जेसी 440758एफ) ज्येष्ठता 01 मई 15 से दी जायेगी)	10 मई 2015*
नायब सूबेदार (लिपिक) लक्ष्मीकान्त चतुर्वेदी	(जेसी 440852एल)	01 मई 2015
नायब सूबेदार (लिपिक) अनिल कुमार बी (*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना	(जेसी 440866एल) ज्येष्ठता 15 मई 15 से दी जायेगी)	28 मई 2015*
सूबेदार मेजर के रैंक में		
सूबेदार आर पलनिसामी	(जेसी 439812एक्स)	01 जनवरी 2014
सूबेदार बाबुकुटन के (*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना	(जेसी 439345एल) ज्येष्ठता 01 जनवरी 14 से दी जायेगी)	01 फरवरी 2014*

सूबेदार आर गोविंदराज (*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 14 से दी जायेगी)	(जेसी 439735एन)	03 फरवरी 2014*
सूबेदार सुनिल बाबु जी (*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 14 से दी जायेगी)	(जेसी 439416एफ)	04 फरवरी 2014*
सूबेदार वेलगाचेरला नरसा रेड्डी (*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 14 से दी जायेगी)	(जेसी 440053पी)	03 मार्च 2014*
सूबेदार रघु कुमार पी (*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 14 से दी जायेगी)	(जेसी 439579पी)	05 मार्च 2014*
सूबेदार सुधाकरण पी एस (*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 14 से दी जायेगी)	(जेसी 439655डब्ल्यू)	02 अप्रैल 2014*
सूबेदार (लिपिक) वीरेन्द्र सिंह (*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 14 से दी जायेगी)	(जेसी 439398के)	02 मई 2014*
सूबेदार सी एच रामचन्द्रा रेड्डी (*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 14 से दी जायेगी)	(जेसी 439513वाई)	02 जून 2014*
सूबेदार प्रदीप कुमार एस (*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 14 से दी जायेगी)	(जेसी 440134पी)	02 अगस्त 2014*
सूबेदार शाजी ई ए	(जेसी 439497एम)	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार जी वेंकट रेड्डी	(जेसी 439825पी)	01 नवम्बर 2014
सूबेदार मोहनन टी (*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 14 से दी जायेगी)	(जेसी 439841एम)	03 नवम्बर 2014*
सूबेदार पी लिवर राज (*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 15 से दी जायेगी)	(जेसी 440118एक्स)	02 फरवरी 2015*
सूबेदार एम पोलुराजु (*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 15 से दी जायेगी)	(जेसी 439770डब्ल्यू)	02 मार्च 2015*
सूबेदार जयाराजन ओ वी (*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 15 से दी जायेगी)	(जेसी 439843एक्स)	03 मार्च 2015*
सूबेदार एम कंदसामी	(जेसी 439582पी)	01 अप्रैल 2015
सूबेदार एस वेंबाडियन (*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 15 से दी जायेगी)	(जेसी 439638डब्ल्यू)	02 अप्रैल 2015*
सूबेदार राजेश ए एल	(जेसी 439714एक्स)	01 अप्रैल 2015
सूबेदार (लिपिक) उमेद सिंह महार	(जेसी 438967ए)	01 मई 2015
सूबेदार वी मुत्तुसामी	(जेसी 439775पी)	01 मई 2015
सूबेदार अरवा गोपी	(जेसी 439540एच)	01 जून 2015
सूबेदार रतनावेल आर	(जेसी 439664एक्स)	01 जून 2015
सूबेदार एस आरुमुगम	(जेसी 439667एल)	01 जून 2015
सूबेदार डेविस ए जे (*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 15 से दी जायेगी)	(जेसी 439668एन)	02 जून 2015*
सूबेदार आर आईयालु सामी (*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 15 से दी जायेगी)	(जेसी 439901डब्ल्यू)	02 जून 2015*
सूबेदार गुंडा गांगुलु (*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 15 से दी जायेगी)	(जेसी 439754वाई)	04 जून 2015*

सूबेदार पांडा श्रीनिवासलु	(जेसी 439706वाई)	26 जून 2015*
(*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जून 15 से दी जायेगी)		
सूबेदार आरोक्यस्वामी ए	(जेसी 439917एफ)	10 जुलाई 2015*
(*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 15 से दी जायेगी)		
सूबेदार पदमप्पा हुलामनी	(जेसी 440049एम)	01 अगस्त 2015
सूबेदार राजेन्द्र सिंह	(जेसी 439687वाई)	09 अगस्त 2015*
(*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 15 से दी जायेगी)		
सूबेदार चेन्तामराय कृष्णन	(जेसी 440140एच)	01 सितम्बर 2015
सूबेदार के रैंक में		

नायब सूबेदार स्पन्बा सेरिंग (जेसी 588542 एम)	01 जून 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार नवांग लन्टक (जेसी 588569 के)	01 जून 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार सेवांग रिंगजिन (जेसी 588577 एच)	01 जून 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार सेवांग नुरबू (जेसी 588578 एल)	01 जून 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार टाशी नमगायल (जेसी 588646 एन)	01 जून 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार रिंगजिन टमचोस (जेसी 588602 डब्ल्यू)	01 जून 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार सेवांग नमगायल (जेसी 588603 एक्स)	01 जून 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार रिंगजिन नोरबु (जेसी 588636 के)	01 जून 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार मोहम्मद साफी (जेसी 588591 पी)	01 जून 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)	

लद्दाख स्काउट्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार नवांग टाशी (सं. 9924324 एन अब जेसी 588758 एन)	01 जून 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)	
हवलदार स्तान्जिन चुलटिम (सं. 9924362 के अब जेसी 588759 डब्ल्यू)	01 जून 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)	
हवलदार दुगजे सकलजंग (सं. 9924163 डब्ल्यू अब जेसी 588760 एल)	01 जून 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)	
हवलदार दोर्जेटुंडुप (सं. 9924678 डब्ल्यू अब जेसी 588761 एन)	01 जून 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)	
हवलदार रिचन टुंडुप (सं. 9927971 वाई अब जेसी 588762 डब्ल्यू)	01 जून 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)	
हवलदार कोंचोक स्तान्जिन (सं. 9924366 ए अब जेसी 588763 वाई)	01 जून 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)	

हवलदार सेरिंग टाशी(सं. 9924310 एन अब जेसी 588764 एफ)	01 जून 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)	
हवलदार सेतन दोर्जे(सं. 9924548 एन अब जेसी 588765 के)	01 जून 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)	
हवलदार इब्राहिम (सं. 9924386 एन अब जेसी 588766 एम)	01 जून 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)	

राजपूताना राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राज कुमार	(2889008एम अब जेसी-471505एन)	09 जुलाई 2014 '01 मई 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार जब्बर खान	(2888026एच अब जेसी-471506डब्ल्यू)	25 सितम्बर 2014 '09 मई 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 मई 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार कुलदीप सिंह	(2889146एन अब जेसी-471507वाई)	20 नवम्बर 2014 '20 जून 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जून 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार हरविन्दर सिंह	(2888055एक्स अब जेसी-471508एफ)	03 जनवरी 2015 '01 जुलाई 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार अनंग पाल	(2891692वाई अब जेसी-471509के)	16 नवम्बर 2014 '01 जुलाई 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार कश्मीरी लाल	(2889719एम अब जेसी-471510वाई)	30 सितम्बर 2014 '05 जुलाई 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जुलाई 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार करेना सैलेश गोविन्द	(2889263वाई अब जेसी-471511एफ)	30 दिसम्बर 2014 '12 जुलाई 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 जुलाई 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार योगेन्द्र सिंह सवानेर	(2889068एफ अब जेसी-471512के)	22 नवम्बर 2014 '17 जुलाई 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 जुलाई 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार संदीप	(16017503के अब जेसी-471513एम)	05 जनवरी 2015 '23 जुलाई 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 जुलाई 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह	(2888540एम अब जेसी-471514पी)	21 नवम्बर 2014 '25 जुलाई 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 जुलाई 2014 दी जायेगी)		

नायब सूबेदार जगतपाल सिंह	(2891277एक्स अब जेसी-471515एक्स)	03 नवम्बर 2014 '01 अगस्त 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार गुलाब सिंह	(2889959के अब जेसी-471516ए)	10 नवम्बर 2014 '01 अगस्त 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राजेश कुमार बलोन्दा	(2890066एच अब जेसी-471517एच)	10 नवम्बर 2014 '01 अगस्त 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार अमरजीत सिंह	(2889777डब्ल्यू अब जेसी-471518एल)	07 अक्टूबर 2014 '01 अगस्त 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार गोपी सिंह	(2887732एक्स अब जेसी-471519एन)	19 दिसम्बर 2014 '01 सितम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुमेर सिंह सिसोदिया	(2889828वाई अब जेसी-471520एच)	19 नवम्बर 2014 '01 सितम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार अरुण सिंह	(2889120वाई अब जेसी-471521एल)	14 नवम्बर 2014 '01 सितम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार बलवान सिंह	(2888582वाई अब जेसी-471522एन)	02 जनवरी 2015 '01 सितम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार करणी सिंह	(2890796एन अब जेसी-471523डब्ल्यू)	17 दिसम्बर 2014 '01 सितम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार बुधा सेन सिंह परिहार	(2890188एम अब जेसी-471524वाई)	13 नवम्बर 2014 '21 सितम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 सितम्बर 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सीता राम	(2888807डब्ल्यू अब जेसी-471525एफ)	16 नवम्बर 2014 '23 सितम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 सितम्बर 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार अनिल कुमार	(2889361वाई अब जेसी-471526के)	08 दिसम्बर 2014 '27 सितम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 सितम्बर 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह	2888298एच अब जेसी-471527एम)	20 नवम्बर 2014 '01 अक्टूबर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार लिपिक बंशी लाल	(2890424एच अब जेसी-471528पी)	05 नवम्बर 2014 '01 नवम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 दी जायेगी)		

नायब सूबेदार मुलतान अली	(2888167एक्स अब जेसी-471529एक्स)	13 फरवरी 2015 '01 नवम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार विजय	(2892526एक्स अब जेसी-471530एम)	08 दिसम्बर 2014 '01 नवम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार भूपेन्द्र सिंह	(2888713वाई अब जेसी-471531पी)	01 फरवरी 2015 '01 नवम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार महीपाल सिंह	(2889665डब्ल्यू अब जेसी-471532एक्स)	17 नवम्बर 2014 '01 नवम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार ज्वारी लाल	(2890092के अब जेसी-471533ए)	17 नवम्बर 2014 '01 नवम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार बद्री प्रसाद जाट	(2890576के अब जेसी-471534एच)	17 नवम्बर 2014 '01 नवम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार बलवन्त सिंह	(2890612के अब जेसी-471535एल)	17 नवम्बर 2014 '01 नवम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार बलवान सिंह	(2890629एक्स अब जेसी-471536एन)	06 दिसम्बर 2014 '01 नवम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार नेमी चन्द ढाका	(2889437एन अब जेसी-471537डब्ल्यू)	04 दिसम्बर 2014 '01 नवम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार अग्रेज सिंह	(2890813एच अब जेसी-471538वाई)	22 नवम्बर 2014 '01 नवम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार अजीत सिंह	(2888544एच अब जेसी-471539एफ)	09 फरवरी 2015 '13 नवम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 नवम्बर 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुख राम	(2889692ए अब जेसी-471540डब्ल्यू)	24 दिसम्बर 2014 '13 नवम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 नवम्बर 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार त्रिभुवन कुमार सिंह	(2891378एल अब जेसी-471541वाई)	25 दिसम्बर 2014 '13 नवम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 नवम्बर 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह	(2890485ए अब जेसी-471542एफ)	02 फरवरी 2015 '22 नवम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 नवम्बर 2014 दी जायेगी)		

नायब सूबेदार इन्द्र सिंह	(3995767एन अब जेसी —471543के)	09 फरवरी 2015 '22 नवम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 नवम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार बशिष्ठ नारायण सिंह	(2891372के अब जेसी —471544एम)	02 फरवरी 2015 '22 नवम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 नवम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार दिवान सिंह	(2889032एच अब जेसी —471545पी)	15 जनवरी 2015 '29 नवम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 नवम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार लिपिक श्री प्रकाश	(2890508डब्ल्यू अब जेसी —471546एक्स)	04 दिसम्बर 2014 '01 दिसम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार सूरज भान	(2888857एफ अब जेसी —471547ए)	09 दिसम्बर 2014 '01 दिसम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार हुसैन पी पी	(2887886के अब जेसी —471548एच)	10 फरवरी 2015 '01 दिसम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार सावूद्दीन खान	(2888346एक्स अब जेसी —471549एल)	10 फरवरी 2015 '01 दिसम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार पेप सिंह शेखावत	(2888854एन अब जेसी —471550ए)	19 दिसम्बर 2014 '01 दिसम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार भीरू सिंह रातपूत	(2889106एम अब जेसी —471551एच)	23 दिसम्बर 2014 '01 दिसम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार दया राम	(2888633एफ अब जेसी — 471552एल)	08 जनवरी 2015 '01 दिसम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार कृष्ण पाल	(2889202एफ अब जेसी —471553एन)	31 जनवरी 2015 '01 दिसम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार अनिल कुमार	(2889444के अब जेसी —471554डब्ल्यू)	07 फरवरी 2015 '01 दिसम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार संजीव कुमार	(2890018एच अब जेसी —471555वाई)	30 मार्च 2015 '04 दिसम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 दिसम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार सोमवीर	(2889448ए अब जेसी —471556एफ)	19 जनवरी 2015 '04 दिसम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 दिसम्बर 2014 दी जाएगी)		

नायब सूबेदार धर्म सिंह	(2890099एन अब जेसी -471557के)	13 जनवरी 2015 '04 दिसम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 दिसम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह	(2889463पी अब जेसी -471558एम)	19 जनवरी 2015 '06 दिसम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 दिसम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार रमाजान खान	(2888855डब्ल्यू अब जेसी -471559पी)	20 मार्च 2015 '11 दिसम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 दिसम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार भीम सिंह	(2890003ए अब जेसी -471560के)	08 मार्च 2015 '23 दिसम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 दिसम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार जोगेन्द्र सिंह	(2888643एल अब जेसी -471561एम)	20 मार्च 2015 '25 दिसम्बर 2014
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 दिसम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार लिपिक अनिल कुमार	(2888123ए अब जेसी -471562पी)	02 जनवरी 2015 '01 जनवरी 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार लिपिक के जया शंकर	(2890221वाई अब जेसी -471563एक्स)	03 जनवरी 2015 '01 जनवरी 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार नरेन्द्र कुमार	(2888688एल अब जेसी -471564ए)	15 मार्च 2015 '01 जनवरी 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार श्रीपाल सिंह	(2888931एक्स अब जेसी -471565एच)	23 जनवरी 2015 '01 जनवरी 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार दिलीप सिंह	(2891622ए अब जेसी -471566एल)	09 जनवरी 2015 '01 जनवरी 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार भवानी सिंह	(16018754ए अब जेसी -471567एन)	16 फरवरी 2015 '15 जनवरी 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जनवरी 2015 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार पूरण सिंह	(2888705ए अब जेसी -471568डब्ल्यू)	20 मार्च 2015 '16 जनवरी 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 जनवरी 2015 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार नीरज कुमार	(2891437एम अब जेसी -471569वाई)	19 फरवरी 2015 '29 जनवरी 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 जनवरी 2015 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार लिपिक उतपल कुमार भुनीयों	(2890229एल अब जेसी -471570एन)	01 फरवरी 2015

नायब सूबेदार लिपिक विन्ने विजय पाडुरंग	(2889619एफ अब जेसी —471571डब्ल्यू)	02 फरवरी 2015 '01 फरवरी 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार लिपिक अंसारी जहांगीर समसुल हक	(2890333वाई अब जेसी —471572वाई)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार लिपिक सुनील कुमार पाण्डेय	(2890551एक्स अब जेसी —471573एफ)	02 फरवरी 2015 '01 फरवरी 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार लिपिक राम कुमार	(2890656एफ अब जेसी —471574के)	27 फरवरी 2015 '01 फरवरी 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार लिपिक मदन सिंह मेहरा	(2890661एम अब जेसी —471575एम)	27 फरवरी 2015 '01 फरवरी 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार किशोर सिंह	(2888690एच अब जेसी —471576पी)	13 मार्च 2015 '01 फरवरी 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार कप्तान सिंह	(2888849एच अब जेसी —471577एक्स)	14 फरवरी 2015 '01 फरवरी 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार महिपाल	(2888818एच अब जेसी —471578ए)	02 फरवरी 2015 '01 फरवरी 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार बिरेन्द्र सिंह	(2890042वाई अब जेसी —471579एच)	14 फरवरी 2015 '01 फरवरी 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार नानक सिंह शेखावत	(2889055के अब जेसी —471580एक्स)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार हीरा लाल मील	(2895041ए अब जेसी —471581ए)	25 फरवरी 2015 '01 फरवरी 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार लेख राम	(2887921एफ अब जेसी —471582एच)	01 मार्च 2015 '01 फरवरी 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार बलबीर सिंह	(2891702एक्स अब जेसी —471583एल)	14 फरवरी 2015 '01 फरवरी 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह	(2891561एन अब जेसी —471584एन)	02 मार्च 2015 '01 फरवरी 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार भवंर लाल	(2890375एल अब जेसी —471585डब्ल्यू)	28 फरवरी 2015 '01 फरवरी 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 दी जाएगी)		

नायब सूबेदार अनिल कुमार	(2889293डब्ल्यू अब जेसी —471586वाई)	02 मार्च 2015 '01 फरवरी 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार शिव कुमार	(2891766एच अब जेसी —471587एफ)	13 फरवरी 2015 '01 फरवरी 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह	(2889066डब्ल्यू अब जेसी —471588के)	26 मार्च 2015 '25 फरवरी 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 फरवरी 2015 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार लिपिक वेद पाल सिंह	(2890662पी अब जेसी —471589एम)	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार लिपिक महेश सिंह	(2890673एफ अब जेसी —471590एफ)	02 मार्च 2015 '01 मार्च 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार लिपिक मुरगानन्दम एस	(2890222एफ अब जेसी —471591के)	02 मार्च 2015 '01 मार्च 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार सिकन्दर सिंह	(2888952एन अब जेसी —471592एम)	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार जितेन्द्र कुमार	(2889902पी अब जेसी —471593पी)	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार मंगल सिंह	(2888856वाई अब जेसी —471594एक्स)	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार समुन्द्र सिंह	(2888859एम अब जेसी —471595ए)	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार शशी कपूर	(2888746के अब जेसी —471596एच)	01 अप्रैल 2015 '01 मार्च 2015
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 दी जाएगी)		

वी एन रवीन्द्रन
अवर सचिव

नौसेना शाखा

सं. 285, दिनांक 3 नवम्बर 2015—

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना)
असैनिक कार्मिक निदेशालय

संलग्न सूची के अनुसार, नौसेना, रक्षा मंत्रालय में फोरमैन (तकनीकी पर्यवेक्षी कर्मचारिवृन्द) (समूह 'ख' राजपत्रित) वेतन बैंड—2, रु. 9,300—34,800/— + ग्रेड वेतन रु. 4,600/— में सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्ति का अनुमोदन किया गया।

संदीप कुमार
निदेशक, सी पी (एन जी)

परिशिष्ट 'ए'			
भारत का राजपत्र भारतीय नौसेना में फोरमैन पद के लिए अधिसूचना			
क्रमांक	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	पदोन्नति तारीख
1	एके पांडे	03/03/1956	18/05/2009
2	बीए भोसले	11/03/1957	30/09/2013

3	वीवी नायडू	12/01/1956	29/05/2012
4	वी बालकृष्णन	13/03/1957	30/09/2013
5	आरसीएच चिन्ना कृष्णइया	10/04/1970	28/12/2011
6	ओपी पंत	14/04/1955	24/08/2007
7	पीवी रमेश	01/12/1955	30/09/2013
8	एसआर कर	11/10/1957	30/09/2013
9	आर प्रधान	01/07/1972	30/09/2013
10	एमटी जगदीसकुमार	25/05/1974	30/09/2013
11	केआर रामामूर्ति	05/11/1955	26/09/2011
12	एल यादव	20/11/1971	30/09/2013
13	आर मुथुमणिकम्म	24/06/1966	25/01/2010
14	जेआर गुंडन्ना	09/02/1955	30/09/2013
15	वीपी म्हात्रे	01/02/1958	30/09/2013
16	एआई अंसारी	16/10/1959	11/06/2009
17	आरवी मिस्त्री	22/01/1957	30/04/2008
18	एमएम पाटिल	01/05/1956	30/09/2013
19	आरबी कांबले	02/06/1956	30/09/2013
20	बीपी सिंह	20/03/1962	26/09/2011
21	बीके साहा	02/01/1959	30/09/2013
22	पी प्रसाद	01/10/1962	30/09/2013
23	एआई मालिम	12/06/1955	26/09/2011
24	एपी राय	05/01/1957	25/05/2012
25	एसएन राउत	25/05/1957	27/12/2010
26	एसएस सावंत	14/01/1967	30/09/2013
27	जी मेघवाल	25/02/1972	30/09/2013
28	एसआर खरवार	13/05/1973	30/09/2013
29	केएम थॉमस	19/04/1962	27/12/2010
30	वीएम मेस्त्री	14/11/1955	27/12/2010
31	एसआर नायर	01/07/1962	27/12/2010
32	टी पस्सी	01/06/1966	19/09/2011
33	एमएस यादव	01/07/1969	27/12/2010
34	बीए दरेकर	07/05/1961	05/12/2012

35	बी चौहान	05/03/1956	25/05/2012
36	एस सत्यम	15/09/1969	26/09/2011
37	इआर प्रकाश	19/11/1963	27/12/2010
38	सी यादव	02/02/1963	27/12/2010
39	वीएस नेगी	24/08/1960	30/09/2013
40	पीएस राम	09/10/1961	30/09/2013
41	ओपी शर्मा	27/01/1962	30/09/2013
42	आरवी सिंह	04/07/1973	30/09/2013
43	आरआर कुमार	09/06/1977	30/09/2013
44	एसएस कुमामेकर	12/05/1964	06/01/2006
45	ए कुमार	03/05/1972	30/09/2013
46	वी कुमार	01/07/1979	30/09/2013
47	टीआर सिंह	07/02/1959	29/10/2012
48	जेके उदयावर	13/01/1956	30/09/2013
49	डी चंद्रा	01/02/1975	30/09/2013
50	एमपी नायर	12/05/1959	30/09/2013
51	एसके पांडे	01/02/1979	30/09/2013
52	टी सिंह	11/11/1976	30/09/2013
53	जेडी इंगले	27/01/1960	30/09/2013
54	केएम भोर	13/09/1960	30/09/2013
55	एपी बगुल	15/08/1961	30/09/2013
56	वीबी चौधरी	01/06/1971	27/12/2010
57	जेके मंगोंकर	13/06/1955	30/09/2013
58	बीके श्रीवास्तव	28/12/1963	26/09/2011
59	वाईके शर्मा	25/05/1960	26/09/2011
60	एमए कुरेशी	04/03/1960	27/12/2010
61	एसडी यादव	04/01/1955	30/09/2013
62	केटी रामदास	20/01/1962	30/09/2013
63	आरके मिश्रा	06/02/1963	30/09/2013
64	पीके पट्टनायक	02/01/1967	30/09/2013
65	एसए रेमेडिओस	15/05/1955	11/06/2009
66	एसके मण्डल	21/10/1972	30/09/2013

67	केपी राव	21/08/1968	11/06/2009
68	वीएच भाए	15/10/1964	30/09/2013
69	आरकेजे डेसीती	02/06/1967	27/12/2010
70	जीसी प्रधान	19/01/1980	30/09/2013
71	आर मेथ्यू	06/11/1973	30/09/2013
72	बीके दिवाकर	01/03/1978	30/09/2013
73	डीआर जाधव	20/06/1975	25/05/2012
74	एसटी नायक	25/02/1975	30/09/2013
75	सी राय	25/01/1970	30/09/2013
76	एस कुमार	02/01/1979	30/09/2013
77	एसएम वीरप्पन	18/03/1964	30/09/2013
78	एच कमल	17/10/1966	30/09/2013
79	वीके चवान	15/12/1969	30/09/2013
80	वीबी नीलम	09/10/1965	25/05/2012
81	वीडी गवास	23/05/1956	19/09/2011
82	एमएम कनोजिया	01/06/1963	18/05/2009
83	एसए खान	01/01/1955	30/09/2013
84	के राजीव	21/11/1957	30/09/2013
85	वीआर पावले	16/12/1958	30/09/2013
86	टीके सरकार	15/05/1960	30/09/2013
87	एमएच कोर्डे	09/02/1963	30/09/2013
88	आरपी गुप्ता	02/10/1959	27/12/2010
89	डीएस वर्मा	31/10/1957	18/05/2009
90	एपी जॉन	09/07/1957	30/09/2013
91	डीजी हेगडे	05/01/1961	30/09/2013
92	एसएलएफ डि'कोस्टा	13/10/1961	30/09/2013
93	पीके सुरेश	01/10/1962	30/09/2013
94	आरएम कुंदर	01/10/1955	25/05/2012
95	वी कुमार	02/12/1974	30/09/2013
96	डीएस डाल्वी	02/06/1961	25/05/2012
97	के उन्नीकृष्णन	12/01/1959	30/09/2013
98	जेडआर ठाकुर	08/02/1961	21/09/2007

99	एसजे फर्नांडेस	04/12/1962	21/09/2007
100	एमजे रोचा	04/05/1958	29/04/2008
101	एमके सिन्हा	02/01/1978	30/09/2013
102	एसबी इंदुलकर	10/06/1964	25/05/2012
103	अली नौशाद	15/12/1959	18/05/2009
104	एबी भट्ट	17/01/1959	19/09/2011
105	जेएस खंडारी	08/10/1957	18/05/2009
106	डीडी रॉय	13/01/1959	30/09/2013
107	आरएस वाज़	05/10/1964	30/09/2013
108	एसआर राय	13/11/1964	30/09/2013
109	के कुमार	15/05/1965	30/09/2013
110	एमएस बारे	02/07/1966	30/09/2013
111	केए शमीम	31/07/1971	30/09/2013
112	आरएच मिस्त्री	14/11/1963	26/09/2011
113	एसके पीटर	21/05/1961	26/09/2011
114	यूएल कसर	18/06/1974	30/09/2013
115	एसके ग़ोवर	27/03/1955	26/09/2011
116	एसबी सिंह	04/05/1956	30/09/2013
117	टी वर्गीज़	02/05/1964	30/09/2013
118	एवी मथकर	26/02/1964	11/06/2009
119	यूए सकपाल	23/04/1955	18/05/2009
120	डी मोहालिक	21/04/1975	27/12/2010
121	जे फिलिप	17/05/1971	26/09/2011
122	एसटी जाधव	06/01/1964	11/06/2009
123	जेआर डियास	19/11/1956	21/09/2007
124	जीसी बेहरा	27/07/1964	18/05/2009
125	ओपी दीक्षित	10/06/1955	18/05/2009
126	एआर सेन	13/02/1963	30/09/2013
127	एच राय	04/02/1964	30/09/2013
128	एके पांडा	07/07/1981	25/05/2012
129	डीआर गाड़े	06/06/1960	27/12/2010
130	एसबी कोली	11/04/1980	30/09/2013

131	पीआर किमटकर	15/03/1957	26/09/2011
132	आरए वाघमरे	29/04/1972	30/09/2013
133	एम अन्नमलाई	01/07/1962	18/05/2009
134	एसएन कुडपने	15/06/1978	30/09/2013
135	एसयू पांडा	24/03/1980	30/09/2013
136	डी ठाकुर	05/01/1958	30/04/2008
137	पीजे पार्कर	05/07/1956	11/06/2009
138	सीजे डि'कोस्टा	03/11/1956	30/04/2008
139	आरआर पवार	13/09/1957	30/04/2008
140	वीपी वरदकर	26/01/1957	11/06/2009
141	आरएस यादव	10/07/1958	26/09/2011
142	पीडी शिंदे	01/06/1959	21/09/2007
143	एचबी रत्ने	09/07/1956	21/09/2007
144	पीएन मजालिकर	19/12/1972	26/09/2011
145	यूडी तुप्सुंदर	26/04/1955	19/09/2011
146	वीपी यादव	06/07/1957	25/05/2012
147	केएस मूले	20/05/1962	11/06/2009
148	पीजी इसव	23/03/1963	26/09/2011
149	एके राय	08/07/1967	25/05/2012
150	बीए म्हात्रे	23/07/1956	25/05/2012
151	एस नायर	15/05/1962	29/05/2012
152	वी विजयन	30/05/1959	24/08/2007
153	एमपी सिंह	14/01/1956	11/06/2009
154	एमआर पाटिल	01/06/1956	26/09/2011
155	एसपी सिंह	15/12/1954	21/09/2007
156	आर आम्ब्रे	28/12/1956	26/09/2011
157	लाम नायक	18/09/1961	21/09/2007
158	वीएच सावंत	08/02/1956	19/09/2011
159	एनएस वादके	22/08/1958	19/09/2011
160	एमपी दूदवादकर	18/09/1959	27/12/2010
161	आरके भोजाने	05/01/1959	24/08/2007
162	एमएम लाद	16/12/1954	21/09/2007

163	डीई कांबले	05/03/1963	25/09/2009
164	जेए जेक्यूस	07/06/1962	30/09/2013
165	एस कुलान	09/07/1962	05/12/2012
166	सीएस गाँवकर	13/07/1955	06/01/2006
167	जीबी धीमान	03/02/1958	05/12/2012
168	वीकेएस गौतम	01/07/1960	27/12/2010
169	एसके अवस्थी	20/09/1960	18/05/2009
170	वीएस सरवे	02/09/1955	21/09/2007
171	वीजे रणवाड़े	15/03/1957	11/06/2009
172	वीएम हिंदलेकर	06/12/1965	26/09/2011
173	एसआर क्षेत्रे	02/06/1955	26/07/2006
174	जीआर आपरे	01/01/1955	24/08/2007
175	एसवाड़ गजकोष	09/07/1982	30/09/2013
176	आर कुमार	08/04/1984	30/09/2013
177	आरपी गुप्ता	15/07/1961	30/09/2013
178	जे सिंह	01/01/1961	17/10/2012
179	एससी हाज़रा	01/06/1967	30/09/2013
180	एसके भालेराओ	04/06/1980	30/09/2013
181	आर रंजन	04/08/1978	24/12/2007
182	पीबी सावंत	06/05/1958	11/06/2009
183	एस जोसेफ	28/05/1965	30/09/2013
184	एके दुबे	09/08/1967	30/09/2013
185	वीआर जयाप्रसाद	29/03/1960	30/09/2013
186	जी वेणुगोपाल	30/05/1961	11/06/2009
187	पीजे कुलकर्णी	08/01/1958	11/06/2009
188	केए पाटिल	10/01/1959	25/05/2012
189	बीएस नन्दकार	01/04/1956	27/12/2010
190	एवी काले	03/06/1960	30/09/2013
191	यूएस मिरजे	20/09/1960	30/09/2013
192	आर सिंह	13/12/1975	31/03/2007
193	एमए अंसारी	01/01/1958	19/09/2011
194	वीएन सकपाल	03/11/1968	08/11/2011

195	एवाइ जगतप	01/06/1960	30/04/2008
196	आरआइ नागतिलक	05/05/1957	30/09/2013
197	एनआर परब	21/03/1959	30/09/2013
198	एमआइ डॉक्टर	30/10/1959	30/09/2013
199	जेबीवी राजा	05/05/1971	30/09/2013
200	आरआर भंडारे	15/06/1968	27/12/2010
201	बीएम राजे	01/06/1955	18/05/2009
202	डीजी पांचाल	06/04/1955	19/09/2011
203	एसपी सिंगासने	24/07/1957	30/09/2013
204	केए जॉर्ज	23/05/1958	30/09/2013
205	बी चटर्जी	13/09/1958	30/09/2013
206	एके शर्मा	26/05/1959	30/09/2013
207	एसबी तोमर	22/04/1964	29/05/2012
208	केके पुनिया	09/12/1971	30/09/2013
209	डीवी अंबरे	01/06/1957	18/05/2009
210	एसजी जादव	15/10/1954	30/09/2013
211	आरपी मिश्रा	01/01/1956	18/05/2009
212	आरबी यादव	15/05/1968	26/09/2011
213	एचटी निमजे	25/03/1975	18/05/2009
214	डीएन सिंह	04/10/1956	29/09/2012
215	यूवी पदवे	02/10/1970	25/05/2012
216	बीएस राव	15/07/1957	27/12/2010
217	आरके पांडे	01/01/1959	30/09/2013
218	पीबी राउल	02/09/1959	30/09/2013
219	एसके घोष	01/04/1964	19/09/2011
220	आईएम साहू	02/03/1970	19/09/2011
221	डीजी कस्तूरे	02/03/1957	26/09/2011
222	सीजी कोल्टे	20/11/1955	27/12/2010
223	पीएन मोहंती	07/06/1978	25/05/2012
224	एचबी गुरंग	17/03/1961	16/12/2011
225	एसआर सपाला		30/09/2013
226	एमटी शिंगदे	04/08/1976	30/09/2013

227	वीजी जोसे	28/07/1962	26/09/2011
228	वीएन शेलर	19/04/1961	30/09/2013
229	आरबी डाल्वी	30/10/1961	29/05/2012
230	एसबी अंबावने	15/09/1957	26/09/2011
231	एसएच पल्लव	23/07/1958	24/08/2007
232	एनवी माने	26/08/1983	30/09/2013
233	डीके साहू	26/06/1980	30/09/2013
234	वीए चौवान	26/03/1963	30/09/2013
235	डी राम	15/10/1970	30/09/2013
236	एएन प्रसाद	24/10/1956	19/09/2011
237	वीजी डाल्वी	19/05/1957	25/05/2012
238	वीजे धारत	01/06/1959	18/05/2009
239	वीके सिंह	06/01/1962	25/09/2009
240	केआरवी नायर	20/05/1959	27/12/2010
241	एपी सिंह	16/05/1961	30/09/2013
242	आरपी बिर्डी	11/03/1960	25/05/2012
243	जेएल आर्या	10/12/1966	27/12/2010
244	पी वेणुगोपालन	07/02/1956	27/12/2010
245	एसडी कदम	01/06/1959	25/05/2012
246	डीएस परदेशी	05/12/1955	30/04/2008
247	एसवी टोपे	16/06/1959	30/09/2013
248	एसजी हुलवले	01/05/1960	30/09/2013
249	एएन चाबुकस्वर	16/10/1963	26/09/2011
250	एसजे लाँडे	02/06/1961	30/09/2013
251	जी जोसेफ	05/04/1973	30/09/2013
252	पीवी मिठारी	19/06/1973	30/09/2013
253	एस नवीन	27/08/1973	30/09/2013
254	एसके वर्मा	07/01/1971	30/09/2013
255	एसडी टीके	06/05/1972	26/09/2011
256	आरजी चवन	08/11/1961	29/05/2012
257	एस कुमार	29/04/1960	30/09/2013
258	एलएफ नायक	22/07/1961	11/06/2009

259	डीपी कांबले	01/06/1955	27/12/2010
260	बीसी जोशी	19/10/1959	27/12/2010
261	एसए माथियस	29/12/1959	30/09/2013
262	जेआर डोंगरे	01/09/1962	26/09/2011
263	एमआई सुर्वे	09/09/1959	11/06/2009
264	वाइआर मुलीक	03/11/1954	11/06/2009
265	ईए इत्तयाविरह	04/09/1957	31/10/2012
266	एमएल पताडे	01/12/1960	30/09/2013
267	एसडब्ल्यू शेलर	01/05/1961	30/09/2013
268	एमआर पवार	13/06/1959	30/09/2013
269	एन कुमार	19/11/1960	11/06/2009
270	एसके शर्मा	12/10/1960	21/09/2007
271	पीवी कुरियन	27/05/1959	18/05/2009
272	सीआइ कास्टेलीनों	14/10/1957	29/05/2012
273	एआर बेटकार	20/02/1961	18/05/2009
274	आर राधाकृष्णन	01/04/1958	29/05/2012
275	केज़ी मुरली	24/06/1961	01/11/2012
276	वाईबी यादव	04/01/1955	30/09/2013
277	टीडी सिंह	08/01/1959	30/09/2013
278	एम सिंह	17/10/1960	30/09/2013
279	वीएम पाटकर	09/11/1960	30/09/2013
280	एचज़ी भंडारे	05/09/1961	30/09/2013
281	जेपी जोशी	27/12/1961	30/09/2013
282	एम पांडे	02/01/1962	30/09/2013
283	एमसी प्रधान	13/03/1965	30/09/2013
284	एसएस नायर	26/09/1959	30/09/2013
285	एसएन सकपाल	22/09/1962	30/09/2013
286	एसके सिंह	15/03/1963	30/09/2013
287	एचएन यादव	24/08/1961	21/12/2010
288	ओपी तिवारी	10/08/1962	27/12/2010
289	सी स्यामनाथ	14/03/1963	30/09/2013
290	सीएन राजू	24/05/1970	25/05/2012

291	एसबी बड़ादे	04/12/1960	29/05/2012
292	वीज़ी काप्से	24/10/1964	27/12/2010
293	एएम माणे	23/05/1964	30/09/2013
294	एके राय	08/07/1958	11/06/2009
295	एचडी कांबले	01/08/1957	26/09/2011
296	आर कुमार	25/01/1969	21/09/2007
297	वीएस कारांडे	01/06/1956	30/04/2008
298	एमए कुरेशी	10/04/1962	01/01/2006
299	एस जेकब	08/05/1961	01/11/2012
300	टीवी पंकजाक्षन	29/11/1956	01/01/2006
301	पीआर ठाकरे	05/07/1961	21/09/2007
302	एसबी भोगाले	23/06/1969	21/09/2007
303	ईए मेनेज़ेस	15/06/1968	01/01/2006
304	ए सिंह	12/10/1963	01/01/2006
305	केसी परिदा	08/06/1961	21/09/2007
306	आइजे शेख	02/09/1966	21/09/2007
307	एमजी प्रसाद	15/08/1968	21/09/2007
308	पीके साहू	05/02/1965	30/04/2008
309	वीके पुरी	04/11/1969	21/09/2007
310	एवी जयचंदन	18/04/1961	21/09/2007
311	बी जैक्सन	08/11/1968	21/09/2007
312	आर कुमार	12/08/1971	21/09/2007
313	ए हुसैन	09/04/1964	30/04/2008
314	आरएस यादव	11/09/1970	30/04/2008
315	एन कांबले	20/09/1969	30/04/2008
316	डीके गंगवार	30/09/1968	30/04/2008
317	एनएस राने	05/12/1972	11/06/2009
318	एन भास्कर	30/07/1968	28/12/2011
319	एसके मिश्रा	23/09/1970	11/06/2009
320	एक्स वाज़	16/03/1963	21/09/2007
321	एके सिंह	01/01/1962	25/05/2012
322	एचआर कवासिया	11/04/1973	25/05/2012

323	एसके पीटर	30/07/1963	29/05/2012
324	जेएम फ़र्नांडीस	30/07/1959	30/04/2007
325	आरडी सापरे	21/08/1959	30/04/2007
326	टीएस कादले	15/03/1957	30/09/2013
327	आरडी यादव	01/01/1960	30/09/2013
328	जीएस चंदले	15/07/1960	30/09/2013
329	आर सिंह	26/02/1961	30/09/2013
330	केएस सेबेस्टियन	13/11/1962	30/09/2013
331	आरएस दहिया	02/09/1964	30/09/2013
332	वाई खान	20/10/1959	30/09/2013
333	डीएस मिश्रा	25/12/1965	21/09/2007
334	पीबी बोधाने	10/05/1961	30/04/2007
335	एसएआर ऊमेर	18/01/1963	25/05/2012
336	के कुमार	05/05/1963	21/09/2007
337	बी बालानायक	10/06/1971	29/02/2008
338	एचवी सरमा	21/07/1966	03/03/2008
339	जीएस जमखंडी	11/03/1969	21/09/2007
340	एनके दत्ता	10/11/1964	29/04/2008
341	पी सैमकुमार	05/02/1962	29/05/2012
342	बीसी हंसदा	15/03/1962	30/09/2013
343	जेआर सईद	06/08/1962	26/09/2011
344	आर श्यामलाल	17/11/1963	27/12/2010
345	एएम शर्मा	19/03/1960	30/09/2013
346	एसएस मोदक	20/04/1971	30/09/2013
347	पीवी राजन	26/02/1961	27/12/2010
348	के करन	01/12/1967	30/09/2013
349	एसके बेहरा	27/06/1969	30/09/2013
350	डीके पाठक	24/11/1955	26/09/2011
351	टीआर पटेल	06/04/1955	31/12/1993
352	केके देसाई	04/03/1965	30/09/2013
353	एमपी राम	21/09/1969	30/09/2013
354	एसएन पांडे	10/10/1963	25/05/2012

355	एसबी तांबे	15/07/1963	30/09/2013
356	डबल्यूए बेग	03/05/1959	30/09/2013
357	केवी बाबू	05/06/1971	30/09/2013
358	के नाल्लालगु	26/05/1964	26/09/2011
359	डीएस बिष्ट	20/08/1975	1/2/2014
360	एसपी गणपती	15/04/1966	30/09/2013
361	वीडी जोशी	08/08/1969	25/05/2012
362	एम सिंह	06/06/1960	25/05/2012
363	जी सिंह	20/03/1960	30/04/2008
364	एसपी माने	30/12/1956	30/09/2013
365	एस राजपूत	15/04/1962	28/12/2011
366	डीपी राज	07/05/1960	27/12/2010
367	वीएसएच प्रसाद	22/05/1974	30/09/2013
368	एसके पांडे	04/07/1971	30/09/2013
369	आरएन सिंह	14/09/1956	27/12/2010
370	जे मेंडोका	06/08/1960	29/05/2012
371	एमएन सुकुमारन	14/11/1954	29/05/2012
372	एके चतुर्वेदी	23/07/1979	30/09/2013
373	एस जाधव	28/05/1966	26/09/2011
374	एमए बेग	06/12/1964	30/09/2013
375	एचएन जगदाले	01/06/1956	30/09/2013
376	एडी कांबले	01/06/1961	26/09/2011
377	एलसी यादव	05/10/1960	30/09/2013
378	सीएल खेदेकर	01/06/1960	30/09/2013
379	वीआर दिचोलकर	23/11/1970	30/09/2013
380	बीआर नारायणकर	01/06/1963	19/09/2011
381	एमआर मनियार	03/06/1959	30/09/2013
382	वीएस सीजी	11/04/1978	30/09/2013
383	पीएस काकडे	02/06/1967	01/07/2012
384	वाईके शर्मा	01/01/1956	27/12/2010

385	जेएल केरकर	29/11/1957	26/09/2011
386	वीवाई थवि	24/05/1956	30/04/2008
387	एजी परांजपे	01/06/1958	18/05/2009
388	सीडी खरत	28/10/1955	26/09/2011
389	एस दहिया	20/02/1961	27/12/2010
390	केएल भालेराव	03/05/1961	30/09/2013
391	एजी पाटिल	08/12/1964	30/09/2013
392	एवी काजी	06/07/1967	30/09/2013
393	सीएफ नूनिस	14/10/1957	11/06/2009
394	पीबी डाल्वी	01/05/1957	11/06/2009
395	एवाई म्हात्रे	26/03/1957	18/05/2009
396	आरबी पारकर	15/02/1959	30/09/2013
397	एमएस असवाले	15/11/1977	30/09/2013
398	एमसी काले	28/12/1957	11/06/2009
399	आरपी शर्मा	30/12/1961	29/05/2012
400	एसजी गायकवाड़	10/10/1964	29/05/2012
401	एस चौगुले	01/06/1956	30/09/2013
402	एमपी पाटिल	20/11/1962	30/09/2013
403	जे रामधानी	05/03/1969	30/09/2013
404	आरजी कांबले	20/10/1960	30/09/2013
405	बी दास	10/01/1962	30/09/2013
406	बीटी शिंदे	01/06/1958	26/09/2011
407	आरटी शिंदे	16/08/1960	26/09/2011
408	एवीएस रामामूर्ति	13/05/1968	11/06/2009
409	वीजे गवारे	21/04/1966	24/08/2007
410	एचसी मोरे	18/04/1966	30/09/2013
411	एससी यादव	22/02/1960	25/05/2012
412	वीएम हुडलीकर	27/08/1957	27/12/2010
413	आरबी मसूरकर	14/06/1956	30/09/2013
414	एलपी डिसूजा	07/12/1963	30/09/2013

415	एमजी पवार	17/11/1961	30/09/2013
416	एसए नादकर्णी	11/03/1961	25/05/2012
417	वीपी कांसे	17/11/1960	25/05/2012
418	एसबी पेदांकर	01/06/1965	19/09/2011
419	एमएम रोड्रिग्स	24/09/1961	30/09/2013
420	आरके गोदे	07/12/1959	26/09/2011
421	केसी नायक	11/01/1965	19/09/2011
422	के सिंह	04/11/1962	19/09/2011
423	एचडी तारे	29/09/1963	18/05/2009
424	एनए हुब्लीकर	15/01/1958	30/09/2013
425	एसबी केनी	13/02/1958	30/09/2013
426	एससी पाल	10/12/1964	30/09/2013
427	पी कुमार	05/07/1977	30/09/2013
428	बी शर्मा	05/05/1978	30/09/2013
429	बी एच शर्मा	06/11/1956	26/09/2011
430	एआई बारगीर	19/06/1959	26/09/2011
431	वीकेएस मेनन	23/07/1965	25/05/2012
432	एजे पाटिल	25/04/1960	30/09/2013
433	पीएन औगस्टियन	30/12/1962	30/09/2013
434	जीएस मिश्रा	01/10/1962	26/09/2011
435	बीए गवाड़े	14/08/1959	21/09/2007
436	एए राधाकृष्णन	05/04/1972	30/09/2013
437	आरएन नगर्वेकर	20/12/1959	30/09/2013
438	वीबी सवाईकर	17/04/1966	27/12/2010
439	एनबी निरुलकर	11/01/1964	26/09/2011
440	केबी अभिलाष	16/12/1969	30/09/2013
441	बीडी जाधव	30/11/1960	30/09/2013
442	केपी सायरेक	15/04/1965	27/12/2010
443	एके नायर	30/05/1962	27/12/2010
444	केटी सेबस्टिन	09/02/1968	30/09/2013

445	जेआर जॉनसन	08/03/1969	30/09/2013
446	एमएम रसालकर	17/04/1970	30/09/2013
447	पीजी तनवाड़े	19/03/1958	26/09/2011
448	एसएस बमने	04/05/1960	30/09/2013
449	आर सुयाल	12/11/1966	29/09/2012
450	सीएम सिंह	15/03/1963	19/09/2011
451	एमके सिंह	26/02/1970	30/09/2013
452	आइपी पांडे	06/01/1960	30/04/2008
453	जेआर प्रभु	27/08/1977	25/05/2012
454	एसएम पाणिग्रही	15/07/1955	18/05/2009
455	एसके पिल्लई	14/11/1957	19/09/2011
456	डी जॉर्ज	23/06/1956	19/09/2011
457	एलआर पाल	04/02/1959	27/12/2010
458	डीआर डिंडिगाला	01/06/1959	30/09/2013
459	केएम नायर	02/05/1960	30/09/2013
460	एस कुमार	02/10/1961	30/09/2013
461	आर कुमार	04/12/1963	30/09/2013
462	बीएस यादव	01/04/1964	30/09/2013
463	एपी भंगारे	22/10/1980	30/09/2013
464	एस रज़ा	14/01/1972	25/05/2012
465	आरजी लोने	18/04/1964	19/09/2011
466	एमपी सारंग	30/07/1959	11/06/2009
467	एम दादी	17/06/1982	25/05/2012
468	केआर मुरलीधरन	09/04/1961	01/12/2011
469	सीबीबी चंद	28/04/1974	30/09/2013
470	पीएस परते	18/12/1966	26/09/2011
471	ओपी पांडे	26/09/1970	29/05/2012
472	एएल म्हात्रे	15/05/1980	25/05/2012
473	बीबी मोहंती	20/11/1972	25/05/2012
474	एके गौतम	7/12/1975	30/09/2013
475	एम कुमार	3/12/1971	30/09/2013

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 286, दिनांक 4 नवम्बर 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

श्री जगबीर सिंह को वरिष्ठ भंडार अधिकारी-II, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 09.01.2015 (पूर्वाह्न) से पे बैंड 3 में रु. 15,600—39,100/— (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु. 5,400/— पर।

श्री हितेश कुमार को वरिष्ठ भंडार अधिकारी-I, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित), डी आर डी ओ में 01.01.2015 (पूर्वाह्न) से पे बैंड 3 में रु. 15,600—39,100/— (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु. 6,600/— पर।

श्री सी हरी कृष्णन को वरिष्ठ भंडार अधिकारी-I, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित), डी आर डी ओ में 01.01.2014 (पूर्वाह्न) से पे बैंड 3 में रु. 15,600—39,100/— (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु. 6,600/— पर।

श्री सुधीर कुमार उप्रेती को सहायक निदेशक (रा. भा.) ग्रुप 'ए' (राजपत्रित), डी आर डी ओ में 02.09.2015 (पूर्वाह्न) से पे बैंड 3 में रु. 15,600—39,100/— (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु. 5,400/— पर।

श्री एन श्रीनाथा राव को वरिष्ठ लेखा अधिकारी-II, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 22.02.2013 (पूर्वाह्न) से पे बैंड 3 में रु. 15,600—39,100/— (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु. 5,400/— पर।

राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दए गए पदों तथा तारीख से डीआरडीओ में सहर्ष (ग्रुप बी) राजपत्रित पदोन्नतियां करते हैं :—

नाम	पद	स्था/प्रयो.	कार्यभार ग्रहण की तारीख	पे बैंड तथा ग्रेड पे
श्री आर के नायक	प्रशासनिक अधिकारी	पीएक्सई, बालासोर	06.08.2015	पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/—
श्रीमती संगीता भाटिया	लेखा अधिकारी	जेसीबी, दिल्ली	07.08.2015	पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/—

राजीव रंजन सिन्हा
उप निदेशक (कार्मिक)

सेना शाखा

सं. 287, दिनांक 5 नवम्बर 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से त्याग पत्र देने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

आई सी न.	रैंक	नाम	आर्म्स	त्याग पत्र देने की तारीख
आई सी-60288	मेजर	विकास कुमार	सिग्नल	20.03.2013
आई सी-64270	मेजर	विशाल बहुखंडी	सिग्नल	19.02.2014
डब्ल्यू एस.01259	मेजर	इन्दु धामा	ए.ओ.सी	10.02.2014 (पूर्वाह्न)
आई सी-66983	मेजर	अरुण कुमार पाँडा	इन्फैन्ट्री	31.12.2012
एस.एस.43443	कैप्टन	निकिता अनल	ए.एस.सी	12.04.2013 (अ प)
आई सी-67834	मेजर	ललित कुमार	आर्टी	23.04.2014 (अ प)

वन्दना दुबे
उप निदेशक
एम एस/पी आर

सेना शाखा

सं. 288, दिनांक 6 नवम्बर 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

आई सी न.	रैंक	नाम	आर्म्स	सेवानिवृत्ति की तारीख
आई सी-43051	कर्नल	प्रबल प्रताप सिंह	ए. एस. सी.	25.05.13(अ प)
आई सी-43935	कर्नल (टी एस)	अरुण पांडे	इन्फैन्ट्री	24.07.14 (पूर्वाहन)
आई सी-44247	कर्नल	संजय कपूर	इन्जीनियर्स	02.11.13(अ प)
आई सी-44544	कर्नल	शिराज वर्मा	ए. सी.	12.05.11(अ प)
आई सी-44601	कर्नल	मिलन रामराव शिंदे	सिग्नल	12.03.13(अ प)
आई सी-44819	कर्नल	राजीव वाशनदानी	सिग्नल	02.05.12(अ प)
आई सी-44903	कर्नल	के मधुसूदन राव	ई. एम. ई.	16.10.10(अ प)
आई सी-45775	कर्नल (टी एस)	संजीव बनर्जी	ई. एम. ई.	29.11.14(अ प)
आई सी-46053	कर्नल	प्रबुद्ध शर्मा	ए. ए. डी.	03.09.14(अ प)
आई सी-47280	कर्नल (टी एस)	हरमनजीत सिंह चोपडा	इन्फैन्ट्री	15.02.14(अ प)
आई सी-47540	कर्नल	अशोक कुमार बिंजोलकर	ई. एम. ई.	04.08.14(अ प)
आई सी-48449	कर्नल	मनोज भटनागर	इन्जीनियर्स	22.04.14(अ प)
आई सी-48938	कर्नल (टी एस)	एम. रणधीर सिंह	इन्जीनियर्स	08.04.14(अ प)
आई सी-49873	कर्नल	देशराज राहार	ए. ओ. सी.	23.07.14(अ प)
आई सी-49923	कर्नल	केतन भट्ट	ई. एम. ई.	08.10.14(अ प)
आई सी-49946	कर्नल	जी.पी. जेकब	इन्जीनियर्स	06.12.13(अ प)
आई सी-44974	कर्नल (टी एस)	विजय कुमार शर्मा	सिग्नल	11.04.12(अ प)
आई सी-49988	कर्नल	जितेन्द्र सिंह मिन्हास	सिग्नल	10.04.13(अ प)
आई सी-50358	कर्नल	अजय सोनी	ए. ए. डी.	04.07.14(अ प)
आई सी-51281	कर्नल	राहुल शर्मा	इन्फैन्ट्री	27.07.13(अ प)
आई सी-51703	कर्नल	नरेश शर्मा	ए. ओ. सी.	18.06.13(अ प)
आई सी-51969	कर्नल	तरुण सिरौही	ए. सी.	08.11.14(अ प)
आई सी-52032	कर्नल	जी. जार्ज	ए. ए. डी.	09.10.14(अ प)
आई सी-52147	कर्नल	एस. आर. किरण	इन्फैन्ट्री	08.10.14(अ प)
आई सी-52309	कर्नल	प्रकाश मूर्ति आर	सिग्नल	30.05.14(अ प)
आई सी-52396	कर्नल	अभिषेक अग्निहोत्री	आर्टी	13.09.14(अ प)
आई सी-52480	कर्नल	रोहित जग्गी	इन्फैन्ट्री	31.12.14(अ प)
आई सी-52524	कर्नल	गौतम सिंह	इन्जीनियर्स	16.06.14(अ प)
आई सी-53090	कर्नल	विनोद श्योरिंगल	सिग्नल	31.12.14(अ प)
आई सी-51345	कर्नल	सुदीप मुकर्जी	आर्टी	26.10.13(अ प)

आई सी-45901	कर्नल (टी एस)	राजेश नंदल	इन्जीनियर्स	07.12.13(अ प)
आई सी-46089	कर्नल	रंजन कुमार सिंह	इन्जीनियर्स	10.12.13(अ प)
आई सी-34483	कर्नल (टी एस)	मोहम्मद नईम खान	इन्फैन्ट्री	18.12.10(अ प)
आई सी-40897	कर्नल	सुनील कुमार अरोड़ा	ए. एस. सी.	14.09.13(अ प)
आई सी-42750	कर्नल	करणजीत सिंह	ई. एम. ई.	19.05.14(अ प)
आई सी-43496	कर्नल (टी एस)	विजेन्द्र कुमार सिंह	ए. ओ. सी.	08.04.14(अ प)
आई सी-45533	कर्नल	अनिल भट्ट	ए. सी.	22.04.14(अ प)
आई सी-45584	कर्नल (टी एस)	समरजीत सिंह रंधावा, एस एम	मैक इन्फैन्ट्री	31.01.13(अ प)
आई सी-45746	कर्नल (टी एस)	रजनीश कुमार काकरिया	ई. एम. ई.	30.09.13(अ प)
आई सी-45910	कर्नल	रजनीश कक्कर	ए. सी.	09.06.12(अ प)
आई सी-48531	कर्नल	आर. श्रीजीत	सिग्नल	20.02.13(अ प)
आई सी-48561	कर्नल	गजेन्द्र सिंह श्योकंड	ए.ए.	30.09.13(अ प)
आई सी-48580	कर्नल	हिलेरी वाज	ए. एस. सी.	08.06.14(अ प)
आई सी-48948	कर्नल	आइसक मनी पालाथिकल	इन्जीनियर्स	08.07.13(अ प)
आई सी-48961	कर्नल	एन. के. एस. बरार	ए. सी.	22.10.12(अ प)
आई सी-50014	कर्नल	वाघ गिरिश गुलाब	इन्जीनियर्स	15.02.14(अ प)
आई सी-50188	कर्नल	राजेश गाँधी	ई. एम. ई.	12.02.14(अ प)
आई सी-52465	कर्नल	जोस्युला रेणुका वेंकटा मुरलीकृष्णा	सिग्नल	31.05.14
आई सी-41762	कर्नल	मुरली जी	आर्टी	21.09.13(अ प)
आई सी-42122	कर्नल (टी एस)	रविन्दर चौहान	आर्टी	06.07.13(अ प)
आई सी-43572	कर्नल	विनीत देव, एस एम	आर्टी	19.02.13(अ प)
आई सी-44176	कर्नल	विक्रम गोविन्द पान्डे	मैक इन्फैन्ट्री	17.11.13(अ प)
आई सी-44427	कर्नल (टी एस)	श्रीकान्त जे गायकवाड़	ई. एम. ई.	30.09.13(अ प)
आई सी-46820	कर्नल	इन्द्रजीत सिंह	सिग्नल	10.07.13(अ प)
आई सी-49995	कर्नल	अरविन्द कुमार	ई. एम. ई.	07.01.14(अ प)
आई सी-52322	कर्नल	अच्युत सिंघल	इन्जीनियर्स	07.01.14(अ प)
आई सी-54686	कर्नल	रूपिन्दर जीत सिंह हायर	आर्टी	13.04.13(अ प)
आई सी-42349	कर्नल	वी जी भटनागर	आर्टी	13.07.12(अ प)
आई सी-47869	कर्नल	राजु वालिया	ए. एस. सी.	11.04.12(अ प)
आई सी-48926	कर्नल	आर एस चिताले	ई. एम. ई.	15.02.14(अ प)
आई सी-50019	कर्नल	एन श्रीनिवासन	ईन्ट	28.02.14(अ प)
आई सी-50030	कर्नल	सुमीत पटनी	ए. ओ. सी.	15.04.14(अ प)
आई सी-50839	कर्नल	आर आई मलीक	ए. एस. सी.	01.12.12(अ प)
आई सी-52468	कर्नल	दिपांशु सिन्हा, एस एम	इन्फैन्ट्री	27.04.14(अ प)
आई सी-54904	कर्नल	संजय कुमार सिंह	ए. एस. सी.	12.03.13(अ प)
आई सी-51088	कर्नल	विनित त्यागी	सिग्नल	23.09.13(अ प)

आई सी-48932	कर्नल (टी एस)	कुलवंत सिंह नोटे	सिग्नल	31.10.13(अ प)
आई सी-48893	कर्नल (टी एस)	रोहित चौधरी	ई. एम. ई.	31.10.13(अ प)
आई सी-45320	कर्नल (टी एस)	हरदीप सोढी	ई. एम. ई.	04.01.14(अ प)
आई सी-43363	कर्नल	वी के पोखरियाल	ई. एम. ई.	07.12.13(अ प)
आई सी-48160	कर्नल	गौरव छिब्वर	ए. ओ. सी.	30.11.13(अ प)
आई सी-50558	कर्नल	ए के पोखरियाल	इन्जीनियर्स	16.12.13(अ प)
आई सी-52146	कर्नल	रविन्द्र नरवाल	ए. सी.	28.12.13(अ प)
आई सी-50874	कर्नल	इन्दूकरी कण्णा	सिग्नल	17.11.13(अ प)

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा उनको अधिकारियों के नियमित आरक्षी कोटे (क्लासX) आधीन एस ए आई 10/S/63 यथा संशोधित में स्थानांतरित करते हैं :-

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

आई सी नं.	रैंक	नाम	आर्म्स	सेवानिवृत्ति की तारीख
आई सी-50033	ले कर्नल	रोहित कटारिया	ए. सी.	23.09.12(अ प)
आई सी-50964	ले कर्नल	भानु प्रताप सिंह कुशवाहा	ए. ओ. सी.	06.04.13(अ प)
आई सी-50383	ले कर्नल	योगेश सरदाना	सिग्नल	11.11.13(अ प)
आई सी-50054	ले कर्नल	संजीव आनंद	इन्फैन्ट्री	02.11.13(अ प)
आई सी-48959	ले कर्नल	मनोज मलहोत्रा	मैक इन्फैन्ट्री	16.09.13(अ प)
आई सी-52470	ले कर्नल	रजत दत्ता	ए. ओ. सी.	07.01.14(अ प)
आई सी-58989	ले कर्नल	वी पी चतुर्वेदी	सिग्नल	23.11.13(अ प)
आई सी-53075	ले कर्नल	गुरमीत सिंह	इन्जीनियर्स	07.12.13(अ प)
आई सी-50015	ले कर्नल	अजय आहुजा	इन्फैन्ट्री	07.12.13(अ प)
आई सी-48367	ले कर्नल	पंकज मिश्रा	इन्ट	23.12.13(अ प)
आई सी-46047	ले कर्नल	विजय बहादुर थापा	आर्टी	12.08.12(अ प)
आई सी-46922	ले कर्नल	विशाल सूद	आर्मी	28.02.14(अ प)
आई सी-51350	ले कर्नल	अनुराग यादव	इन्फैन्ट्री	07.12.13(अ प)
आई सी-52300	ले कर्नल	सी एस बालकृष्णा	ई. एम. ई.	06.10.13(अ प)
आई सी-51736	ले कर्नल	विक्रम जेटली	आर्टी	24.07.13(अ प)
आई सी-52569	ले कर्नल	प्रताप सिंह	इन्फैन्ट्री	31.01.14(अ प)
आई सी-57864	ले कर्नल	नीरज कुमार	आर्टी	05.01.13(अ प)
आई सी-58650	ले कर्नल	गनेषन एस	आर्टी	16.02.13(अ प)
एस एल.04241	ले कर्नल	दरबारी लाल बडयाल	आर्टी	15.07.12(अ प)
आई सी-42859	ले कर्नल	जॉय चौधरी	इन्फैन्ट्री	28.04.14(अ प)
आई सी-45974	ले कर्नल	एच एस नाडकर्णी	ई. एम. ई.	18.01.14(अ प)
आई सी-50804	ले कर्नल	अजय कुमार	इन्फैन्ट्री	08.04.14(अ प)

आई सी-51306	ले कर्नल	राहुल भार्गव	ई. एम. ई.	06.11.13(अ प)
आई सी-51388	ले कर्नल	अनुराग चौधरी	ए. एस. सी.	20.12.12(अ प)
आई सी-51525	ले कर्नल	आशुतोष सिंह	ए. एस. सी.	13.07.13(अ प)
आई सी-52087	ले कर्नल	संजय शर्मा	इन्फैन्ट्री	25.02.14(अ प)
आई सी-53255	ले कर्नल	सी गणेश बाबु	सिग्नल	10.02.14(अ प)
आई सी-54825	ले कर्नल	आशीष मंगुलकर	इन्जीनियर्स	20.03.14(अ प)
आई सी-54911	ले कर्नल	थोडम बालेश्वर सिंह	ई. एम. ई.	06.03.14(अ प)
एस एल-04231	ले कर्नल	मोहिन्दर सिंह	जनरल सर्विस	07.07.13(अ प)
एस एल-04336	ले कर्नल	टी तिरुपति	जनरल सर्विस	23.12.12(अ प)
एस एल-04439	ले कर्नल	मकवाना अमरुतलाल	ई. एम. ई.	05.12.13
आई सी-60342	मेजर	गुरचरण सिंह	आर्टी	10.07.13(अ प)
आई सी-46673	मेजर	रक्षित कुमार	ए. एस. सी.	19.06.12(अ प)
आई सी-44130	ले कर्नल	ध्यान मायादास	ए. सी.	02.04.14(अ प)
आई सी-46696	ले कर्नल	भरत जोशी	ए. सी.	02.11.13(अ प)
आई सी-46807	ले कर्नल	सिद्धार्थ तोमर	ए.ओ.सी.	07.06.14(अ प)
आई सी-47092	ले कर्नल	ओम प्रकाश राणा	इन्फैन्ट्री	15.12.12(अ प)
आई सी-48393	ले कर्नल	जसमिंदर सिंह सेखों	आर्टी	05.07.14(अ प)
आई सी-49518	ले कर्नल	दीपक छिब्रर	इन्जीनियर्स	07.07.13(अ प)
आई सी-49721	ले कर्नल	मनन मुकुल	इन्फैन्ट्री	07.12.13(अ प)
आई सी-50202	ले कर्नल	सुखदीप सिंह	इन्फैन्ट्री	16.04.13(अ प)
आई सी-51052	ले कर्नल	उपेन्द्र पाँडे	ए. सी.	02.11.13(अ प)
आई सी-51061	ले कर्नल	बंसत कुमार सिंह	इन्फैन्ट्री	16.02.13(अ प)
आई सी-51096	ले कर्नल	मंडीगा विद्यासागर	इन्जीनियर्स	07.12.13(अ प)
आई सी-51339	मेजर	अरुण कुमार झा	इन्ट	17.02.13(अ प)
आई सी-51453	ले कर्नल	भरत शास्त्री	इन्जीनियर्स	25.05.13(अ प)
आई सी-51519	ले कर्नल	हरदीप सिंह छटवाल	इन्जीनियर्स	25.07.13(अ प)
आई सी-51754	ले कर्नल	आर पवित्रन	इन्ट	25.05.13(अ प)
आई सी-51831	ले कर्नल	राव मोहम्मद नजम	इन्जीनियर्स	28.09.13(अ प)
आई सी-51901	ले कर्नल	अनुज श्रीवास्तव	इन्जीनियर्स	10.07.13(अ प)
आई सी-51992	ले कर्नल	सरबजीत सिंह सैनी	ए.ए.	15.02.14(अ प)
आई सी-52330	ले कर्नल	मनु चौधरी	इन्जीनियर्स	07.06.14(अ प)
आई सी-52400	ले कर्नल	विमल कुमार शर्मा	ई.एम.ई.	27.04.14(अ प)
आई सी-52442	ले कर्नल	जी. रघुराम	सिग्नल	07.06.14(अ प)
आई सी-52704	मेजर	गिरीश कश्यप एस	इन्जीनियर्स	11.05.13(अ प)
आई सी-52713	ले कर्नल	पी. मोहम्मद अली	ई.एम.ई.	15.02.14(अ प)
आई सी-52714	ले कर्नल	गुरमीत सिंह	इन्जीनियर्स	17.11.13(अ प)

आई सी-56070	ले कर्नल	रोहित श्रीवास्तव	ए. एस. सी.	27.06.14(अ प)
आई सी-56615	ले कर्नल	हरदीप संधु	इन्जीनियर्स	01.02.14(अ प)
आई सी-62400	मेजर	राजकिशोर कुमार	इन्फैन्ट्री	23.04.14(अ प)
आई सी-62874	मेजर	विकास धनकर	ए.ओ.सी.	31.03.14(अ प)
आई सी-63325	मेजर	आशुतोष कंवर	ई.एम.ई.	16.01.14(अ प)
आई सी-63333	मेजर	अजय यादव	ई.एम.ई.	12.04.14(अ प)
आई सी-63498	मेजर	रघुवेन्द्र सिंह	इन्फैन्ट्री	30.05.14(अ प)
एस सी.00278	ले कर्नल	आन्द्रेयास मशीह	ए.ए.डी.	11.12.13(अ प)
आई सी-46470	ले कर्नल	उदय सिंह सोलंकी	इन्ट	02.07.14(अ प)
आई सी-46790	ले कर्नल	देवकी नंदन शर्मा	इन्फैन्ट्री	30.11.12(अ प)
आई सी-47262	ले कर्नल	प्रशान्त कुमार रे	आर्टी	15.12.12(अ प)
आई सी-50962	ले कर्नल	संजीव कुमार	इन्जीनियर्स	02.07.14(अ प)
आई सी-48227	ले कर्नल	राजीव सिन्हा	आर्टी	14.07.12(अ प)
आई सी-48841	ले कर्नल	सुनील झा	सिग्नल	02.07.13(अ प)
आई सी-50503	ले कर्नल	शान्तनू ऋषि	इन्जीनियर्स	09.02.14(अ प)
आई सी-50613	ले कर्नल	सत्येन्द्र वर्मा	सिग्नल	07.12.13(अ प)
आई सी-50938	ले कर्नल	अमित रस्तोगी	सिग्नल	04.01.14(अ प)
आई सी-50770	ले कर्नल	नखरे मोहित अरविंद	इन्जीनियर्स	13.07.13(अ प)
आई सी-50986	ले कर्नल	संजीव कुमार तगगर	इन्जीनियर्स	07.12.13(अ प)
आई सी-51026	मेजर	किशोर कुमार	इन्जीनियर्स	16.09.13(अ प)
आई सी-51094	ले कर्नल	संदीप सिंह बाजवा	ई. एम. ई.	02.09.14(अ प)
आई सी-51469	ले कर्नल	अनिल यादव	इन्जीनियर्स	10.07.13(अ प)
आई सी-51585	ले कर्नल	विपिन चोपड़ा	इन्जीनियर्स	31.08.13(अ प)
आई सी-51620	ले कर्नल	गौरव सहाय	इन्फैन्ट्री	13.03.13(अ प)
आई सी-51661	ले कर्नल	मनीष सतीशचन्द्र चिटनिष	इन्फैन्ट्री	28.09.13(अ प)
आई सी-52230	ले कर्नल	अनुतोष	ए. ओ. सी.	04.08.14(अ प)
आई सी-52308	ले कर्नल	राधाकृष्णा शिबू IV	सिग्नल	31.10.13(अ प)
आई सी-52479	ले कर्नल	संदीप राणा	ए. एस. सी.	30.08.14(अ प)
आई सी-52665	ले कर्नल	सुजीत कुमार मॉडल	आर्टी	11.10.14(अ प)
आई सी-52690	ले कर्नल	हिरेमठ संजय एस.	इन्जीनियर्स	07.01.14(अ प)
आई सी-52920	ले कर्नल	गौतम मोहन	ए. सी.	01.11.14(अ प)
आई सी-53103	ले कर्नल	राजशेखर ए. एस.	सिग्नल	22.04.14(अ प)
आई सी-54684	ले कर्नल	संजय सिंह	इन्जीनियर्स	07.12.13(अ प)
आई सी-54701	ले कर्नल	श्रीधर वासुदेवन	ए. सी.	19.07.14(अ प)
आई सी-57809	ले कर्नल	नंद किशोर	इन्फैन्ट्री	02.07.13(अ प)
आई सी-58341	ले कर्नल	श्रीनिवास एम. एन.	इन्जीनियर्स	24.09.14(अ प)

आई सी-59900	ले कर्नल	गिरिष भारद्वाज एस.	इन्फैन्ट्री	08.11.14(अ प)
आई सी-60265	ले कर्नल	कुमार गौरव	इन्जीनियर्स	08.11.14(अ प)
आई सी-63493	मेजर	लवेन्द्र सिंह चौधरी	ए. एस. सी.	07.10.14(अ प)
एस सी-00071	ले कर्नल	नागराजन एम.	इन्फैन्ट्री	04.08.14(अ प)
वी-489	ले कर्नल	बिजिन्द्र सिंह मलिक	आर.वी.सी.	11.12.13(अ प)
वी-540	ले कर्नल	हरीष कुमार तिवारी	आर.वी.सी.	07.12.13(अ प)
एस एल-04221	ले कर्नल	ए. अमल राज	जी. एस.	08.04.14(अ प)

वन्दना दुबे
उप निदेशक
एम एस/पी आर

सेना शाखा

सं. 289, दिनांक 9 नवम्बर 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सेवानिवृत्त होने पर अपना रैंक बनाये रखने और वर्दी पहनने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

सेवानिवृत्ती

ले. कर्नल चरनजीत सिंह	(टीए-42568)	इन्फैन्ट्री	31 मई 2015
ले. कर्नल रशीद अहमद	(टीए-42123)	इन्फैन्ट्री	30 नवम्बर 2014

भारत भूषण जोशी
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 28th November 2015

ARMY BRANCH

No. 281, dated 28th October 2015—The President is pleased to make the following appointment :-

TERRITORIAL ARMY

ANTE DATE SENIORITY

IC-51495A, Ex Lieutenant Colonel Abjit Singh Randhawa, now TA-42912A Lieutenant Abjit Singh Randhawa has been granted commission as an officer in the Territorial Army (Infantry) on 27 Feb 2014 in the rank of Lieutenant under the provision given in Appendix VIII of TA Act Rule 1948. He is also granted 14 years, 01 month and 21 days (wef 19.12.1992 to 09.02.2007) ante date seniority with effect from 06 Jan 2000 in the rank of Lieutenant for his former service in the Regular Army. By virtue of his ante date seniority, he is promoted as Major with effect from 27 Feb 2014. Also the officer is promoted with notional seniority in the rank of Captain with effect from 06 Jan 2004, Major wef 06 Jan 2008 and Lieutenant Colonel wef 06 Jan 2015 under the provisions of Para 25 (a) & 38 (a) of TA Regs 1948 (Revised Edition 1976) as amended vide Government of India, Ministry of Defence letter No 18(1)2006/D(GS-1) dated 18 Apr 06 consequent to recommendations of AVSC Committee report for increments of pay and promotion purpose.

B. B. JOSHI
Under Secretary

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 282, dated 29th October 2015—The President is pleased to make the following appointment :-

Sh. Kamlesh Kumar to be Construction Engineer, Gp 'A' (Gazetted) on probation for one year in DRDO with effect from 26.08.2013 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 6600/- .

Sh. Prashant Bhagwan Shinde to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 21.07.2015 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300 – 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-.

Sh. Sridhar Palleda to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 10.07.2015 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300 – 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-.

Sh. Dipesh Chanda to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 03.08.2015 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300 – 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-.

Sh. Doddi JK Chakravarthy to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 19.08.2015 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300 – 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-.

Sh. Subrata Kumar Dash to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 24.02.2015 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300 – 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-.

Sh. Ganvir Laxmikant Parasram to be Sr.Admin Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for One year in DRDO with effect from 28.08.2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- .

RAJEEV RANJAN SINHA
Dy Director (Pers)

ARMY BRANCH

No. 283, dated 30th October 2015—The President is pleased to make the following promotion :

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt Col

Maj David T Jamir	TA-42454	(Infantry)	26 Apr 2015
-------------------	----------	------------	-------------

To be Capt

Lt M Khaja Mohideen	TA-42754	(ASC TA)	02 Aug 13
Lt Arun Kumar Pahadia	TA-42772	(Engineer TA)	03 Jul 13

Lt Anand Shankar	TA-42773	(Engineer TA)	09 Jul 13
Lt Rajib Phukan	TA-42552	(Infantry)	24 Jan 2007.
Lt Devankur	TA-42810	(Infantry)	01 Jun 2015.
Lt Anand Kumar Mishra	TA-42811	(Infantry)	04 Jun 2015.
Lt Vinod Kumar Sashidharan	TA-42812	(Infantry)	17 Jun 2015.
Lt Manish Verma	TA-42814	(Infantry)	13 May 2015.
Lt Himanshu Rustogi	TA-42815	(Infantry)	13 May 2015.
Lt Rup Natha Roy	TA-42816	(Infantry)	21 May 2015.
Lt Nitendra Singh Devda	TA-42817	(Infantry)	08 Jul 2015.
Lt Rahul S Wakhare	TA-42738	(Infantry)	27 Aug 2013.

B. B. JOSHI
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 284, dated 2nd November 2015—The President is pleased to make the following promotions:-

REGULAR ARMY INFANTRY

THE JAT REGIMENT

To be Sub

Nb Sub	Prem Singh	(JC-490434M)	2 nd Aug 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Bijender Singh	(JC-490556W)	1 st Aug 2014
Nb Sub	Suresh Kumar	(JC-490465M)	8 th Aug 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Subhash	(JC-490496M)	1 st Aug 2014
Nb Sub	Narender Kumar	(JC-490482M)	17 th Aug 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Paramjit Singh	(JC-490524N)	19 th Sep 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Mangla Ram	(JC-490584H)	1 st Aug 2014
Nb Sub	Kumbha Ram Jat	(JC-490652L)	1 st Aug 2014
Nb Sub	Udai Singh	(JC-490623W)	21 st Aug 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Biradi Chand Jat	(JC-490658M)	1 st Aug 2014
Nb Sub	Teekma Ram Choudhary, SM	(JC-490659P)	1 st Aug 2014
Nb Sub	Khiraj Poonia	(JC-490665H)	1 st Aug 2014
Nb Sub	Radhey Shyam Jhaharia	(JC-490666L)	1 st Aug 2014
Nb Sub	Devi Singh	(JC-490675M)	19 th Aug 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Nemi Chand Khalia	(JC-490687F)	14 th Aug 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay & allowances.			

Nb Sub	Devi Lal	(JC-490696H)	1 st Aug 2014
Nb Sub	Sumer Singh	(JC-490688K)	30 th Aug 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Jeetendra Singh	(JC-490690F)	16 th Sep 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Dalbir Singh	(JC-490692M)	21 st Feb 2015*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Shyam Singh Bhagod	(JC-490766W)	1 st Aug 2014
Nb Sub	Santokh Chand	(JC-490770Y)	2 nd Sep 2014
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Jagdish Chander Poonia	(JC-490786K)	1 st Aug 2014
Nb Sub	Anil Kumar	(JC-490779N)	22 nd Sep 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Shravan Kumar Dixit	(JC-490800L)	27 th Aug 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Shamsher Singh	(JC-490791P)	1 st Aug 2014
Nb Sub	Kuldip Kumar	(JC-490805K)	1 st Aug 2014
Nb Sub	Surender Singh	(JC-490813H)	1 st Aug 2014
Nb Sub	Davendr Kumar	(JC-490818F)	4 th Aug 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Bhupinder Singh	(JC-490825X)	27 th Aug 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Panna Ram	(JC-490312H)	1 st Apr 2013
Nb Sub	Sat Narain	(JC-490313L)	1 st Apr 2013
Nb Sub	Vijender Kumar	(JC-490415F)	1 st Apr 2013
Nb Sub	Bhura Ram	(JC-490511W)	12 th Apr 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Ram Awtar Loyal	(JC-490517X)	14 th Apr 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Raghuveer Singh	(JC-490519H)	1 st Apr 2013
Nb Sub	Madan Lal Saran	(JC-490535A)	1 st Apr 2013
Nb Sub	Keshav Singh	(JC-490335K)	1 st May 2013
Nb Sub	Rambir	(JC-490371P)	6 th May 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 May 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Munish Kumar	(JC-490377W)	1 st May 2013
Nb Sub	Satya Pal	(JC-490551X)	1 st May 2013
Nb Sub	Hambir	(JC-490557Y)	1 st May 2013
Nb Sub	Hari Om	(JC-490573W)	1 st May 2013
Nb Sub	Chutra Ram	(JC-490580M)	30 th July 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 May 2013 without effect on pay & allowances.			

Nb Sub	Rattan Singh	(JC-490604L)	4 th July 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 May 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Sita Ram	(JC-490653N)	1 st May 2013
Nb Sub	Suresh Kumar	(JC-490678A)	3 rd May 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 May 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Raghuvir Singh	(JC-490686Y)	24 th May 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 May 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Balraj	(JC-490717N)	1 st June 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 May 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Ram Kishan Jat	(JC-490263L)	1 st Sep 2013
Nb Sub	Kartar Singh	(JC-490314N)	10 th Sep 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Sumer Singh	(JC-490404P)	2 nd Sep 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Sanjay Kumar	(JC-490452P)	1 st Sep 2013
Nb Sub	Jeth Mal Jat	(JC-490453X)	22 nd Oct 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Satyawan	(JC-490564P)	10 th Sep 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Ishwar Singh	(JC-490577M)	14 th Oct 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Chandgi Ram Poonia	(JC-490590W)	2 nd Sep 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Mahesh Kumar Payal	(JC-490871M)	1 st Sep 2013
Nb Sub	Sodan Singh	(JC-490315W)	1 st Oct 2013
Nb Sub	Davendra Singh	(JC-490316Y)	1 st Oct 2013
Nb Sub	Permod Kumar	(JC-490395Y)	1 st Oct 2013
Nb Sub	Nangram Bhinchar	(JC-490581P)	14 th Mar 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Oct 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Patel Singh	(JC-490591Y)	1 st Oct 2013
Nb Sub	Gopal Singh	(JC-490644M)	1 st Oct 2013
Nb Sub	Vijay Singh	(JC-490877N)	27 th Jan 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Oct 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Om Parkash	(JC-490878W)	25 th Feb 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Oct 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Surender Singh	(JC-490374H)	15 th Nov 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Subhash Chander	(JC-490419X)	1 st Nov 2013
Nb Sub	Hanuta Ram	(JC-490459Y)	29 th Nov 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 2013 without effect on pay & allowances.			

Nb Sub	Surendra Kumar	(JC-490488N)	5 th Nov 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Karam Singh	(JC-490489W)	1 st Nov 2013
Nb Sub	Vijender Kumar	(JC-490606W)	1 st Nov 2013
Nb Sub	Manjeet Singh	(JC-490613M)	1 st Nov 2013
Nb Sub	Om Prakash Singh	(JC-490629X)	1 st Nov 2013
Nb Sub	Shri Chand	(JC-490619N)	1 st Nov 2013
Nb Sub	Dharmvir Singh	(JC-490620H)	1 st Dec 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Kuldeep	(JC-490660K)	24 th Feb 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Daya Nand	(JC-490663X)	1 st Nov 2013
Nb Sub	Arjun Singh	(JC-490887X)	21 st Jan 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Ram Gopal	(JC-490297Y)	20 th June 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 June 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Narender Kumar	(JC-490560Y)	7 th June 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 June 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Rajvir	(JC-490617H)	1 st June 2013
Nb Sub	Rajvir Singh	(JC-490618L)	1 st June 2013
Nb Sub	Asu Ram	(JC-490373A)	1 st July 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 02 June 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Rajpal Singh	(JC-490387A)	12 th July 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 July 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Rajbir Singh	(JC-490405X)	1 st July 2013
Nb Sub	Budha Ram	(JC-490464K)	6 th Aug 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 July 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Bhanwar Lal	(JC-490631P)	1 st July 2013
Nb Sub	Balraj	(JC-490751N)	7 th Aug 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 July 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Om Prakash	(JC-490783W)	1 st Aug 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 July 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Tara Chand Punia	(JC-490784Y)	1 st Aug 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 July 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Vinod Kumar	(JC-490812A)	1 st Aug 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 July 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Ram Babu	(JC-490632X)	1 st Aug 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 08 July 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Rajendra Singh Mahla	(JC-490336M)	1 st Aug 2013
Nb Sub	Sukhvir Singh	(JC-490360H)	4 th Aug 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2013 without effect on pay & allowances.			

Nb Sub	Subash Chander Choudhary	(JC-490396F)	1 st Aug 2013
Nb Sub	Nathu Ram	(JC-490406A)	8 th Aug 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Madan Lal	(JC-490476Y)	29 th Aug 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Jaivir	(JC-490527F)	21 st Aug 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Rameshwar Lal	(JC-490536H)	1 st Aug 2013
Nb Sub	Mahipal Singh	(JC-490833W)	1 st Aug 2013
Nb Sub	Ram Kumar	(JC-490856X)	31 st Aug 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Mukesh Singh	(JC-490870K)	1 st Aug 2013
Nb Sub	Kishan Singh	(JC-490534X)	13 th Sep 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 21 Aug 2013 without effect on pay & allowances.			
To be Nb Sub			
Hav	Surender Singh	(No 3186606H now JC-491363H)	12 th Sep 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 21 June 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Sukhvir Singh	(No 3185208P now JC-491364L)	24 th Sep 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 06 Aug 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Shri Ram	(No 3185319M now JC-491365N)	28 th Sep 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Jaswinder Singh	(No 3188696N now JC-491366W)	12 th Sep 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Jai Singh	(No 3188869A now JC-491367Y)	21 st Sep 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Rakesh Kumar	(No 3189178A now JC-491332H)	17 th June 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Daleep Singh	(No 2599281W now JC-491333L)	4 th June 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 16 Apr 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Megha Ram Sinwer	(No 4076779N now JC-491334N)	9 th June 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Prem Singh	(No 3188470H now JC-491335W)	19 th June 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Vijay Kumar	(No 3187253A now JC-491336Y)	1 st June 2015
Hav	Sushil Kumar	(No 3187327K now JC-491337F)	11 th June 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Ajit Singh	(No 3185984P now JC-491338K)	11 th June 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Kurda Ram	(No 3186276P now JC-491339M)	1 st June 2015
Hav	Manavir Singh	(No 3186933N now JC-491340F)	17 th June 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2015 without effect on pay & allowances.			

Hav	Jai Singh	(No 3186384Y now JC-491341K)	1 st June 2015
Hav	Raj Kumar Singh	(No 3187100W now JC-491342M)	17 th June 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav Clk	Dilip Kumar Mondal	(No 3189111F now JC-491343P)	1 st July 2015*
Hav	Mohan Lal Jat	(No 3187147F now JC-491322Y)	29 th May 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 12 Apr 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Deb Dan Singh	(No 3192463K now JC-491323F)	28 th May 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 25 Apr 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Jahan Singh	(No 3185333Y now JC-491324K)	28 th May 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Avadesh Kumar	(No 3186306F now JC-491325M)	28 th May 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Ram Chander	(No 3188425W now JC-491326P)	1 st May 2015
Hav	Ram Niwas	(No 3188444F now JC-491327X)	5 th May 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Ajay Singh	(No 3187200F now JC-491328A)	1 st June 2015
Hav	Mahender Singh	(No 3187336L now JC-491329H)	2 nd June 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Jai Ram	(No 3187402H now JC-491330X)	2 nd June 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2015 without effect on pay & allowances.			
To be Nb Sub (Musn)			
Hav (Musn)	Jodh Pal Singh	(No 3186608N now JC-491331A)	8 th June 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2015 without effect on pay & allowances.			
To be Nb Sub			
Hav	Mahavir Singh	(No 3187491M now JC-491298N)	1 st Apr 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Ramdhan	(No 3187510M now JC-491299W)	8 th Apr 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 20 Feb 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Om Parkash	(No 3187773L now JC-491300A)	26 th Mar 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 24 Feb 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Sukhdeva Ram	(No 3187131W now JC-491301H)	1 st Mar 2015
Hav	Satendra Singh Bankura	(No 3201016K now JC-491302L)	15 th Apr 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Yad Ram Singh Bargoti	(No 3188590F now JC-491303N)	5 th Mar 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Billoo Kumar	(No 3187659N now JC-491304W)	24 th Apr 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Govardhan Singh	(No 3187940W now JC-491305Y)	2 nd Apr 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2015 without effect on pay & allowances.			

Hav	Bhanwara Ram	(No 3187962P now JC-491306F)	2 nd Apr 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Surender Singh	(No 3189694P now JC-491307K)	2 nd Apr 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Mahesh Kumar	(No 3188144A now JC-491308M)	14 th May 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Sultan Singh	(No 3188768M now JC-491309P)	2 nd Apr 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Rakesh Kumar	(No 3187738H now JC-491310K)	13 th Apr 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 22 Mar 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Jainarayan Bagriya	(No 3187800K now JC-491311M)	13 th Apr 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Devendra Singh	(No 3186478W now JC-491312P)	10 th Apr 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Netra Pal Singh	(No 3188649W now JC-491313X)	13 th Apr 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Dalbir Singh	(No 3189141Y now JC-491314A)	4 th Apr 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Rajveer	(No 3186205N now JC-491315H)	1 st May 2015
Hav	Manoj Kumar	(No 3186331A now JC-491316L)	1 st May 2015
Hav	Gulbir Singh	(No 3186411X now JC-491317N)	1 st May 2015
Hav	Lala Ram	(No 3186564F now JC-491318W)	1 st May 2015
Hav	Hakim Singh	(No 3186935Y now JC-491319Y)	1 st May 2015
Hav Clk	Chhote Lal	(No 3189038N now JC-491320N)	1 st Apr 2015
Hav Clk	Avinash Kumar	(No 3189070H now JC-491321W)	1 st Apr 2015

THE MADRAS REGIMENT

To be Substantive Sub

Nb Sub Suresh Koulapur	JC440616K	26 Feb 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 14 without effect on pay and allces)		
Nb Sub R Jaya Kumar	JC440353W	17 Dec 14*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 14 without effect on pay and allces)		
Nb Sub Shaik Mohammad Rafi	JC440775F	18 Dec 14*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 14 without effect on pay and allces)		
Nb Sub Venugopal C	JC440328X	25 Nov 14*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 14 without effect on pay and allces)		
Nb Sub (Clk) Narender Singh	JC440714K	13 Nov 14*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 14 without effect on pay and allces)		
Nb Sub Biju Bhaskaran	JC440546W	01 Nov 14
Nb Sub Vikraman Nair T	JC440793K	22 Mar 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 14 without effect on pay and allces)		
Nb Sub A B Prasad	JC440903N	18 Dec 14*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 14 without effect on pay and allces)		

Nb Sub C Antony Raj	JC440540P	05 May 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 14 without effect on pay and allces)		
Nb Sub (Clk) Rakesh Mohan	JC440715M	01 Dec 14
Nb Sub (Clk) Sudesh Kumar Sharma	JC440734X	01 Dec 14
Nb Sub (Clk) Mastan Vali Shaik	JC440733P	27 Mar 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub (Clk) Bhupati Bala	JC440735A	08 Jan 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub (Clk) Deen Dayal	JC440736H	01 Feb 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub Sajeev TV	JC440729M	05 May 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 05 Jan 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub C Arockiadass	JC440464N	23 Mar 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 06 Jan 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub Anbalagan R	JC440597K	09 Feb 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 29 Jan 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub (Clk) Vijay Kumar	JC440765X	01 Feb 15
Nb Sub (Clk) Ajith Kumar BT	JC440766A	02 Feb 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub (Clk) Aji Kumar J	JC440768L	01 Feb 15
Nb Sub (Clk) Dinesh Kumar Singh	JC440809K	01 Feb 15
Nb Sub (Clk) HR Ramesh	JC440810Y	01 Feb 15
Nb Sub (Clk) ME Muthu	JC440819N	01 Feb 15
Nb Sub Chandran S	JC440634M	01 Mar 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub (Clk) G Arokianathan	JC440795P	01 Feb 15
Nb Sub Parasharam Yallurkar	JC440902L	24 Mar 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub Raja P	JC440627W	27 Feb 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub (Clk) Kanakaraj K	JC440808F	01 Feb 15
Nb Sub (Clk) A Muthu Bala Murugan	JC440767H	01 Feb 15
Nb Sub (Clk) Ashwani Kumar Srivastav	JC440794M	18 Feb 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub Mallaya Padala	JC440956M	13 Jun 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub Sunil Kumar TD	JC440693Y	01 Mar 15
Nb Sub Kameshwara Rao Peddini	JC440907K	24 Mar 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub D Siva Kumar	JC440694F	11 May 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 18 Mar 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub Saji P	JC440567M	01 Apr 15
Nb Sub Basappa Patil	JC440791Y	05 May 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub Raju Joseph P	JC440492A	01 Apr 15
Nb Sub Dokkari Appanna	JC440753H	05 May 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 15 without effect on pay and allces)		

Nb Sub Rupendra Kumar, Sena Medal	JC440479W	01 Apr 15
Nb Sub Benny Philip	JC440617M	01 Apr 15
Nb Sub Vinod Kumar N	JC440624H	01 Apr 15
Nb Sub (Clk) K Venkatachalam	JC440833A	01 Apr 15
Nb Sub (Clk) S Mohan Kumar	JC440820H	01 Apr 15
Nb Sub TP Suresh Kumar	JC440805N	03 Apr 15
Nb Sub Perumal S	JC440813M	18 May 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 08 Apr 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub Dhanaji	JC440815X	20 May 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 12 Apr 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub Prakash Chandra Soman	JC440420W	11 Jun 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 13 Apr 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub SP Noor Mohammad	JC440511A	23 May 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 30 Apr 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub P Ramachandran	JC440678K	01 May 15
Nb Sub Kumar R	JC440696M	01 May 15
Nb Sub N Jayathilagan	JC440598M	01 May 15
Nb Sub Sivakumar N	JC440571P	11 May 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub M Arumugam	JC440572X	11 May 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub R Subas Chandra Bose	JC440773W	13 May 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub I Radhakrishnan	JC440526H	16 May 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub Reddi Srinivasa Rao	JC440741N	21 May 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub Sajesh VV	JC440779X	20 May 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub Jaya Rao Boja	JC440772N	11 May 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub Alexander Cherian	JC440758F	10 May 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 15 without effect on pay and allces)		
Nb Sub (Clk) Laxmi Kant Chaturvedi	JC440852L	01 May 15
Nb Sub (Clk) Anil Kumar B	JC440866L	28 May 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 15 May 15 without effect on pay and allces)		
To be Substantive Sub Maj		
Sub R Palanisamy	JC439812X	01 Jan 14
Sub Babukuttan K	JC439345L	01 Feb 14*
*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 14 without effect on pay and allces)		
Sub R Govindaraj	JC439735N	03 Feb 14*
*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 14 without effect on pay and allces)		
Sub Sunil Babu G	JC439416F	04 Feb 14*
*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 14 without effect on pay and allces)		
Sub Velagacherla Narsa Reddy	JC440053P	03 Mar 14*
*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 14 without effect on pay and allces)		

Sub Raghu Kumar P	JC439579P	05 Mar 14*
*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 14 without effect on pay and allces)		
Sub Sudhakaran PS	JC439655W	02 Apr 14*
*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 14 without effect on pay and allces)		
Sub (Clk) Virendra Singh	JC439398K	02 May 14*
*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May 14 without effect on pay and allces)		
Sub CH Ramachandra Reddy	JC439513Y	02 Jun 14*
*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 14 without effect on pay and allces)		
Sub Pradeep Kumar S	JC440134P	02 Aug 14*
*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 14 without effect on pay and allces)		
Sub Shaji EA	JC439497M	01 Oct 14
Sub G Venkat Reddy	JC439825P	01 Nov 14
Sub Mohanan T	JC439841M	03 Nov 14*
*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov 14 without effect on pay and allces)		
Sub P Liver Raj	JC440118X	02 Feb 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 15 without effect on pay and allces)		
Sub M Poluraju	JC439770W	02 Mar 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 15 without effect on pay and allces)		
Sub Jayarajan OV	JC439843X	03 Mar 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 15 without effect on pay and allces)		
Sub M Kandasamy	JC439582P	01 Apr 15
Sub S Vembadiyan	JC439638W	02 Apr 15
*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 15 without effect on pay and allces)		
Sub Rajesh AL	JC439714X	01 Apr 15
Sub (Clk) Umed Singh Mahar	JC438967A	01 May 15
Sub V Muthusamy	JC439775P	01 May 15
Sub Arava Gopi	JC439540H	01 Jun 15
Sub Rathinavel R	JC439664X	01 Jun 15
Sub S Arumugam	JC439667L	01 Jun 15
Sub Devis AJ	JC439668N	02 Jun 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 15 without effect on pay and allces)		
Sub R Ayyalu Samy	JC439901W	02 Jun 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 15 without effect on pay and allces)		
Sub Gunda Gangulu	JC439754Y	04 Jun 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 15 without effect on pay and allces)		
Sub Pandra Srinivasulu	JC439706Y	26 Jun 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 20 Jun 15 without effect on pay and allces)		
Sub Arockiaswamy A	JC439917F	10 Jul 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jul 15 without effect on pay and allces)		
Sub Padmappa Hulamani	JC440049M	01 Aug 15
Sub (Clk) Rajendra Singh	JC439687Y	09 Aug 15*
*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 15 without effect on pay and allces)		
Sub M Chenthamarai Krishnan	JC440140H	01 Sep 15
LADAKH SCOUTS		
To be Subedar (GD)		

JC-588542M Nb Sub Spanba Tsering

01 Jun 2015*

*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2015.

JC-588569K Nb Sub Nawang Lungtok	01 Jun 2015*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2015.	
JC-588577H Nb Sub Tsewang Regzin	01 Jun 2015*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2015.	
JC-588578L Nb Sub Tsewang Nurbu	01 Jun 2015*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2015.	
JC-588646N Nb Sub Tashi Namgyal	01 Jun 2015*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2015.	
JC-588602W Nb Sub Rigzin Tamchos	01 Jun 2015*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2015.	
JC-588603X Nb Sub Tsewang Namgyal	01 Jun 2015*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2015.	
JC-588636K Nb Sub Rigzin Norboo	01 Jun 2015*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2015.	
JC-588591P Nb Sub Mohd Shafi	01 Jun 2015*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2015.	
To be Naib Subedar (GD)	
l Nawang Tashi (9924324N Now JC-588758N)	01 Jun 2015*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2015.	
Hav Stanzin Chultim (9924362K Now JC-588759W)	01 Jun 2015*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2015.	
Hav Thukjay Skalzang (9924163W Now JC-588760L)	01 Jun 2015*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2015.	
Hav Dorjai Tundup (9924678W Now JC-588761N)	01 Jun 2015*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2015.	
Hav Rinchen Tundup (9927971Y Now JC-588762W)	01 Jun 2015*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2015.	
Hav Konchok Stanzin (9924366A Now JC-588763Y)	01 Jun 2015*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2015.	
Hav Tsering Tashi (9924310N Now JC-588764F)	01 Jun 2015*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2015.	
Hav Tsetan Dorjai (9924548N Now JC-588765K)	01 Jun 2015*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2015.	
Hav Ibrahim (9924386N Now JC-588766M)	01 Jun 2015*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2015.	

THE RAJPUTANA RIFLES

To be Nb Sub

Nb Sub Raj Kumar	(2889008M now JC-471505N)	09 Jul 2014 *01 May 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st May 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Jabbar Khan	(2888026H now JC-471506W)	25 Sep 2014 *09 May 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 09 th May 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Kuldeep Singh	(2889146N now JC-471507Y)	20 Nov 2014 *20 Jun 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 20 th Jun 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Harbinder Singh	(2888055X now JC-471508F)	03 Jan 2015 *01 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Anang Pal	(2891692Y now JC-471509K)	16 Nov 2014 *01 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Kashmiri Lal	(2889719M now JC-471510Y)	30 Sep 2014 *05 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 05 th Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Karena Shailesh Govind	(2889263Y now JC-471511F)	30 Dec 2014 *12 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 12 th Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Yogendra Singh Sawaner	(2889068F now JC-471512K)	22 Nov 2014 *17 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 17 th Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sandeep	(16017503K now JC-471513M)	05 Jan 2015 *23 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 23 rd Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Surender Singh	(2888540M now JC-471514P)	21 Nov 2014 *25 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 25 th Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Jagatpal Singh	(2891277X now JC-471515X)	03 Nov 2014 *01 Aug 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Aug 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Gulab Singh	(2889959K now JC-471516A)	10 Nov 2014 *01 Aug 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Aug 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rajesh Kumar Balonda	(2890066H now JC-471517H)	10 Nov 2014 *01 Aug 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Aug 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Amarjeet Singh	(2889777W now JC-471518L)	07 Oct 2014 *01 Aug 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Aug 2014 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Gopi Singh	(2887732X now JC-471519N)	19 Dec 2014 *01 Sep 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Sep 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sumer Singh Sisodiya	(2889828Y now JC-471520H)	19 Nov 2014 *01 Sep 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Arun Singh	(2889120Y now JC-471521L)	14 Nov 2014 *01 Sep 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Balwan Singh	(2888582Y now JC-471522N)	02 Jan 2015 *01 Sep 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Karani Singh	(2890796N now JC-471523W)	17 Dec 2014 *01 Sep 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Buddha Sen Singh Parihar	(2890188M now JC-471524Y)	13 Nov 2014 *21 Sep 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21 st Sep 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sita Ram	(2888807W now JC-471525F)	16 Nov 2014 *23 Sep 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 rd Sep 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Anil Kumar	(2889361Y now JC-471526K)	08 Dec 2014 *27 Sep 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 27 th Sep 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Narendra Singh	(2888298H now JC-471527M)	20 Nov 2014 *01 Oct 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Oct 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub/Clk Bansil Lal	(2890424H now JC-471528P)	05 Nov 2014 *01 Nov 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Nov 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Multan Ali	(2888167X now JC-471529X)	13 Feb 2015 *01 Nov 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Nov 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Vijay	(2892526X now JC-471530M)	08 Dec 2014 *01 Nov 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Nov 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Bhupender Singh	(2888713Y now JC-471531P)	01 Feb 2015 *01 Nov 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Nov 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Maheepal Singh	(2889665W now JC-471532X)	17 Nov 2014 *01 Nov 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Nov 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Jawari Lal	(2890092K now JC-471533A)	17 Nov 2014 *01 Nov 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Nov 2014 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Badri Prasad Jat	(2890576K now JC-471534H)	17 Nov 2014 *01 Nov 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Nov 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Balwant Singh	(2890612K now JC-471535L)	17 Nov 2014 *01 Nov 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Nov 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Balwan Singh	(2890629X now JC-471536N)	06 Dec 2014 *01 Nov 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Nov 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Nemi Chand Dhaka	(2889437N now JC-471537W)	04 Dec 2014 *01 Nov 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Nov 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Angrej Singh	(2890813H now JC-471538Y)	22 Nov 2014 *01 Nov 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Nov 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ajit Singh	(2888544H now JC-471539F)	09 Feb 2015 *13 Nov 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 13 th Nov 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sukh Ram	(2889692A now JC-471540W)	24 Dec 2014 *13 Nov 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 th Nov 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Tribhuvan Kumar Singh	(2891378L now JC-471541Y)	25 Dec 2014 *13 Nov 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 th Nov 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Narender Singh	(2890485A now JC-471542F)	02 Feb 2015 *22 Nov 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22 nd Nov 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Inder Singh	(3995767N now JC-471543K)	09 Feb 2015 *22 Nov 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22 nd Nov 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Bashistha Narayan Singh	(2891372K now JC-471544M)	02 Feb 2015 *22 Nov 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22 nd Nov 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Diwan Singh	(2889032H now JC-471545P)	15 Jan 2015 *29 Nov 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 29 th Nov 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub/Clk Shri Parkash	(2890508W Now JC-471546X)	04 Dec 2014 *01 Dec 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Dec 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Suraj Bhan	(2888857F now JC-471547A)	09 Dec 2014 *01 Dec 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Dec 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Hussain P.P	(2887886K now JC-471548H)	10 Feb 2015 *01 Dec 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Dec 2014 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Sabuddin Khan	(2888346X now JC-471549L)	10 Feb 2015 *01 Dec 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Dec 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Pep Singh Shekhawat	(2888854N now JC-471550A)	19 Dec 2014 *01 Dec 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Dec 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Bheeru Singh Rajput	(2889106M now JC-471551H)	23 Dec 2014 *01 Dec 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Dec 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Daya Ram	(2888633F now JC-471552L)	08 Jan 2015 *01 Dec 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Dec 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Krishan Pal	(2889202F now JC-471553N)	31 Jan 2015 *01 Dec 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Dec 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Anil Kumar	(2889444K now JC-471554W)	07 Feb 2015 *01 Dec 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Dec 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sanjeev Kumar	(2890018H now JC-471555Y)	30 Mar 2015 *04 Dec 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 04 th Dec 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Somvir	(2889448A now JC-471556F)	19 Jan 2015 *04 Dec 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 04 th Dec 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Dharam Singh	(2890099N now JC-471557K)	13 Jan 2015 *04 Dec 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 04 th Dec 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Surender Singh	(2889463P now JC-471558M)	19 Jan 2015 *06 Dec 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 06 th Dec 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ramzan Khan	(2888855W now JC-471559P)	20 Mar 2015 *11 Dec 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 11 th Dec 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Bhim Singh	(2890003A now JC-471560K)	08 Mar 2015 *23 Dec 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 23 rd Dec 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Jogender Singh	(2888643L now JC-471561M)	20 Mar 2015 *25 Dec 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 25 th Dec 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub/Clk Anil Kumar	(2888123A now JC-471562P)	02 Jan 2015 *01 Jan 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jan 2015 without effect on pay & allces)		
Nb Sub/Clk K Jeya Sankar	(2890221Y now JC-471563X)	03 Jan 2015 *01 Jan 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jan 2015 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Narender Kumar	(2888688L now JC-471564A)	15 Mar 2015 *01 Jan 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jan 2015 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Shri Pal Singh	(2888931X now JC-471565H)	23 Jan 2015 *01 Jan 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jan 2015 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Dileep Singh	(2891622A now JC-471566L)	09 Jan 2015 *01 Jan 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jan 2015 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Bhawani Singh	(16018754A now JC-471567N)	16 Feb 2015 *15 Jan 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 15 th Jan 2015 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Puran Singh	(2888705A now JC-471568W)	20 Mar 2015 *16 Jan 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 16 th Jan 2015 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Neeraj Kumar	(2891437M now JC-471569Y)	19 Feb 2015 *29 Jan 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 29 th Jan 2015 without effect on pay & allces)		
Nb Sub/Clk Utpal Kumar Bhunia	(2890229L now JC-471570N)	01 Feb 2015
Nb Sub/Clk Bendre Vijay Pandurang	(2889619F now JC-471571W)	02 Feb 2015 *01 Feb 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Feb 2015 without effect on pay & allces)		
Nb Sub/Clk Ansari Jahangir Samsul Huck	(2890333Y now JC-471572Y)	01 Feb 2015
Nb Sub/Clk Sunil Kumar Pandey	(2890551X now JC-471573F)	02 Feb 2015 *01 Feb 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Feb 2015 without effect on pay & allces)		
Nb Sub/Clk Ram Kumar	(2890656F now JC-471574K)	27 Feb 2015 *01 Feb 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Feb 2015 without effect on pay & allces)		
Nb Sub/Clk Madan Singh Mehra	(2890661M now JC-471575M)	27 Feb 2015 *01 Feb 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Feb 2015 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Kishor Singh	(2888690H now JC-471576P)	13 Mar 2015 *01 Feb 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Feb 2015 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Kaptan Singh	(2888849H now JC-471577X)	14 Feb 2015 *01 Feb 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Feb 2015 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mahipal	(2888818H now JC-471578A)	02 Feb 2015 *01 Feb 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Feb 2015 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Birander Singh	(2890042Y now JC-471579H)	14 Feb 2015 *01 Feb 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Feb 2015 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Nanak Singh Shekhawat	(2889055K now JC-471580X)	01 Feb 2015

Nb Sub Heera Lal Meel	(2895041A now JC-471581A)	25 Feb 2015 *01 Feb 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Feb 2015 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Lekh Ram	(2887921F now JC-471582H)	01 Mar 2015 *01 Feb 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Feb 2015 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Balbir Singh	(2891702X now JC-471583L)	14 Feb 2015 *01 Feb 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Feb 2015 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Narendra Singh	(2891561N now JC-471584N)	02 Mar 2015 *01 Feb 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Feb 2015 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Bhanwar Lal	(2890375L now JC-471585W)	28 Feb 2015 *01 Feb 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Feb 2015 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Anil Kumar	(2889293W now JC-471586Y)	02 Mar 2015 *01 Feb 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Feb 2015 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Shiv Kumar	(2891766H now JC-471587F)	13 Feb 2015 *01 Feb 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Feb 2015 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rajendra Singh	(2889066W now JC-471588K)	26 Mar 2015 *25 Feb 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 th Feb 2015 without effect on pay & allces)		
Nb Sub/Clk Vedpal Singh	(2890662P now JC-471589M)	01 Mar 2015
Nb Sub/Clk Mahesh Singh	(2890673F now JC-471590F)	02 Mar 2015 *01 Mar 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Mar 2015 without effect on pay & allces)		
Nb Sub/Clk Muruganandam S	(2890222F now JC-471591K)	02 Mar 2015 *01 Mar 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Mar 2015 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sikander Singh	(2888952N now JC-471592M)	01 Mar 2015
Nb Sub Jitendra Kumar	(2889902P now JC-471593P)	01 Mar 2015
Nb Sub Mangal Singh	(2888856Y now JC-471594X)	01 Mar 2015
Nb Sub Samunder Singh	(2888859M now JC-471595A)	01 Mar 2015
Nb Sub Shashi Kapoor	(2888746K now JC-471596H)	01 Apr 2015 *01 Mar 2015
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Mar 2015 without effect on pay & allces)		

VN RAVEENDRAN
Under Secretary

NAVY BRANCH

No. 285, dated 3rd November 2015—

INTEGRATED HEADQUARTERS MINISTRY OF DEFENCE (NAVY)

Directorate of Civilian Personnel

The Competent Authority had accorded approval for promotion in respect of Foreman (Technical Supervisory Staff) Group 'B' posts in the Navy, Ministry of Defence in Pay Band 2-Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4600/- as per list attached.

SANDEEP KUMAR
Director CP (NG)

APPENDIX 'A'			
GAZETTE NOTIFICATION IN RESPECT OF FOREMAN OF NAVY			
S.NO	NAME	D.O.B.	DATE OF FOREMAN
1	2	3	4
1	SHRI AK PANDEY	03/03/1956	18/05/2009
2	SHRI BA BHOSLE	11/03/1957	30/09/2013
3	SHRI VV NAIDU	12/01/1956	29/05/2012
4	SHRI V BALAKRISHNAN	13/03/1957	30/09/2013
5	SHRI RCH CHENNA KRISHNAIAH	10/04/1970	28/12/2011
6	SHRI OP PANT	14/04/1955	24/08/2007
7	SHRI PV RAMESH	01/12/1955	30/09/2013
8	SHRI SR KAR	11/10/1957	30/09/2013
9	SHRI R PRADHAN	01/07/1972	30/09/2013
10	SHRI MT JAGDEESKUMAR	25/05/1974	30/09/2013
11	SHRI KR RAMAMOORTHY	05/11/1955	26/09/2011
12	SHRI L YADAV	20/11/1971	30/09/2013
13	SHRI R MUTHUMANIKKAM	24/06/1966	25/01/2010
14	SHRI JR GUNDANNA	09/02/1955	30/09/2013
15	SHRI VP MHATRE	01/02/1958	30/09/2013
16	SHRI AI ANSARI	16/10/1959	11/06/2009
17	SHRI RV MISTRY	22/01/1957	30/04/2008
18	SHRI MM PATIL	01/05/1956	30/09/2013
19	SHRI RB KAMBLE	02/06/1956	30/09/2013
20	SHRI BP SINGH	20/03/1962	26/09/2011
21	SHRI BK SAHA	02/01/1959	30/09/2013
22	SHRI P PRASAD	01/10/1962	30/09/2013
23	SHRI AI MALIM	12/06/1955	26/09/2011
24	SHRI AP RAI	05/01/1957	25/05/2012
25	SHRI SN RAUT	25/05/1957	27/12/2010
26	SHRI SS SAWANT	14/01/1967	30/09/2013
27	SHRI G MEGHWAL	25/02/1972	30/09/2013
28	SHRI SR KHARWAR	13/05/1973	30/09/2013
29	SHRI KM THOMAS	19/04/1962	27/12/2010

1	2	3	4
30	SHRI VM MESTRY	14/11/1955	27/12/2010
31	SHRI SR NAIR	01/07/1962	27/12/2010
32	SHRI T PASSI	01/06/1966	19/09/2011
33	SHRI MS YADAV	01/07/1969	27/12/2010
34	SHRI BA DAREKAR	07/05/1961	05/12/2012
35	SHRI B CHAUHAN	05/03/1956	25/05/2012
36	SHRI S SATYAM	15/09/1969	26/09/2011
37	SHRI ER PRAKASH	19/11/1963	27/12/2010
38	SHRI C YADAV	02/02/1963	27/12/2010
39	SHRI VS NEGI	24/08/1960	30/09/2013
40	SHRI PS RAM	09/10/1961	30/09/2013
41	SHRI OP SHARMA	27/01/1962	30/09/2013
42	SHRI RV SINGH	04/07/1973	30/09/2013
43	SHRI RR KUMAR	09/06/1977	30/09/2013
44	SHRI SS KUMAMEKAR	12/05/1964	06/01/2006
45	SHRI A KUMAR	03/05/1972	30/09/2013
46	SHRI V KUMAR	01/07/1979	30/09/2013
47	SHRI TR SINGH	07/02/1959	29/10/2012
48	SHRI JK UDAYAVAR	13/01/1956	30/09/2013
49	SHRI D CHANDRA	01/02/1975	30/09/2013
50	SHRI MP NAIR	12/05/1959	30/09/2013
51	SHRI SK PANDEY	01/02/1979	30/09/2013
52	SHRI T SINGH	11/11/1976	30/09/2013
53	SHRI JD INGLE	27/01/1960	30/09/2013
54	SHRI KM BHOIR	13/09/1960	30/09/2013
55	SHRI AP BAGUL	15/08/1961	30/09/2013
56	SHRI VB CHOUDHARY	01/06/1971	27/12/2010
57	SHRI JK MANGOANKAR	13/06/1955	30/09/2013
58	SHRI BK SHRIVASTAV	28/12/1963	26/09/2011
59	SHRI YK SHARMA	25/05/1960	26/09/2011
60	SHRI MA QUORESHI	04/03/1960	27/12/2010
61	SHRI SD YADAV	04/01/1955	30/09/2013
62	SHRI KT RAMDAS	20/01/1962	30/09/2013
63	SHRI RK MISHRA	06/02/1963	30/09/2013
64	SHRI PK PATTANAYAK	02/01/1967	30/09/2013
65	SHRI SA REMEDIOS	15/05/1955	11/06/2009
66	SHRI SK MANDAL	21/10/1972	30/09/2013
67	SHRI KP RAO	21/08/1968	11/06/2009

1	2	3	4
68	SHRI VH BHAYE	15/10/1964	30/09/2013
69	SHRI RKJ DESITI	02/06/1967	27/12/2010
70	SHRI GC PRADHAN	19/01/1980	30/09/2013
71	SHRI R MATHEW	06/11/1973	30/09/2013
72	SHRI BK DIWAKAR	01/03/1978	30/09/2013
73	SHRI DR JADHAV	20/06/1975	25/05/2012
74	SHRI ST NAIK	25/02/1975	30/09/2013
75	SHRI C RAI	25/01/1970	30/09/2013
76	SHRI S KUMAR	02/01/1979	30/09/2013
77	SHRI SM VEERAPPAN	18/03/1964	30/09/2013
78	SHRI H KAMAL	17/10/1966	30/09/2013
79	SHRI VK CHAVAN	15/12/1969	30/09/2013
80	SHRI VB NEELAM	09/10/1965	25/05/2012
81	SHRI VD GAWAS	23/05/1956	19/09/2011
82	SHRI MM KANOJIA	01/06/1963	18/05/2009
83	SHRI SA KHAN	01/01/1955	30/09/2013
84	SHRI K RAJEEV	21/11/1957	30/09/2013
85	SHRI VR PAWALE	16/12/1958	30/09/2013
86	SHRI TK SARKAR	15/05/1960	30/09/2013
87	SHRI MH KORDE	09/02/1963	30/09/2013
88	SHRI RP GUPTA	02/10/1959	27/12/2010
89	SHRI DS VERMA	31/10/1957	18/05/2009
90	SHRI AP JOHN	09/07/1957	30/09/2013
91	SHRI DG HEGDE	05/01/1961	30/09/2013
92	SHRI SLF D'COSTA	13/10/1961	30/09/2013
93	SHRI PK SURESH	01/10/1962	30/09/2013
94	SHRI RM KUNDER	01/10/1955	25/05/2012
95	SHRI V KUMAR	02/12/1974	30/09/2013
96	SHRI DS DALVI	02/06/1961	25/05/2012
97	SHRI K UNNIKRISHNAN	12/01/1959	30/09/2013
98	SHRI ZR THAKUR	08/02/1961	21/09/2007
99	SHRI SJ FERNANDES	04/12/1962	21/09/2007
100	SHRI MJ ROCHA	04/05/1958	29/04/2008
101	SHRI MK SINHA	02/01/1978	30/09/2013
102	SHRI SB INDULKAR	10/06/1964	25/05/2012
103	SHRI ALI NAUSHAD	15/12/1959	18/05/2009
104	SHRI AB BHATT	17/01/1959	19/09/2011
105	SHRI JS KANDARI	08/10/1957	18/05/2009
106	SHRI DD ROY	13/01/1959	30/09/2013

1	2	3	4
107	SHRI RS VAZ	05/10/1964	30/09/2013
108	SHRI SR RAI	13/11/1964	30/09/2013
109	SHRI K KUMAR	15/05/1965	30/09/2013
110	SHRI MS BARE	02/07/1966	30/09/2013
111	SHRI KA SHAMIM	31/07/1971	30/09/2013
112	SHRI RH MISTRY	14/11/1963	26/09/2011
113	SHRI SK PETER	21/05/1961	26/09/2011
114	SHRI UL KASAR	18/06/1974	30/09/2013
115	SHRI SK GROVER	27/03/1955	26/09/2011
116	SHRI SB SINGH	04/05/1956	30/09/2013
117	SHRI T VARGISE	02/05/1964	30/09/2013
118	SHRI AV MATHKAR	26/02/1964	11/06/2009
119	SHRI UA SAKPAL	23/04/1955	18/05/2009
120	SHRI D MOHALIK	21/04/1975	27/12/2010
121	SHRI J PHILIP	17/05/1971	26/09/2011
122	SHRI ST JADHAV	06/01/1964	11/06/2009
123	SHRI JR DIAS	19/11/1956	21/09/2007
124	SHRI GC BEHERA	27/07/1964	18/05/2009
125	SHRI OP DIXIT	10/06/1955	18/05/2009
126	SHRI AR SAIN	13/02/1963	30/09/2013
127	SHRI H RAI	04/02/1964	30/09/2013
128	SHRI AK PANDA	07/07/1981	25/05/2012
129	SHRI DR GADE	06/06/1960	27/12/2010
130	SHRI SB KOLI	11/04/1980	30/09/2013
131	SHRI PR KIMATKAR	15/03/1957	26/09/2011
132	SHRI RA WAGHMARE	29/04/1972	30/09/2013
133	SHRI M ANNAMALAI	01/07/1962	18/05/2009
134	SHRI SN KUDAPANE	15/06/1978	30/09/2013
135	SHRI SU PANDA	24/03/1980	30/09/2013
136	SHRI D THAKUR	05/01/1958	30/04/2008
137	SHRI PJ PARKAR	05/07/1956	11/06/2009
138	SHRI CJ D'COSTA	03/11/1956	30/04/2008
139	SHRI RR PAWAR	13/09/1957	30/04/2008
140	SHRI VP WARADKAR	26/01/1957	11/06/2009
141	SHRI RS YADAV	10/07/1958	26/09/2011
142	SHRI PD SHINDE	01/06/1959	21/09/2007
143	SHRI HB RATNE	09/07/1956	21/09/2007
144	SHRI PN MAJALIKAR	19/12/1972	26/09/2011

1	2	3	4
145	SHRI UD TUPSUNDER	26/04/1955	19/09/2011
146	SHRI VP YADAV	06/07/1957	25/05/2012
147	SHRI KS MULAY	20/05/1962	11/06/2009
148	SHRI PJ EASAW	23/03/1963	26/09/2011
149	SHRI AK RAI	08/07/1967	25/05/2012
150	SHRI BA MHATRE	23/07/1956	25/05/2012
151	SHRI S NAIR	15/05/1962	29/05/2012
152	SHRI V VIJAYAN	30/05/1959	24/08/2007
153	SHRI MP SINGH	14/01/1956	11/06/2009
154	SHRI MR PATIL	01/06/1956	26/09/2011
155	SHRI SP SINGH	15/12/1954	21/09/2007
156	SHRI AR AMBRE	28/12/1956	26/09/2011
157	SHRI LAM NAIK	18/09/1961	21/09/2007
158	SHRI VH SAWANT	08/02/1956	19/09/2011
159	SHRI NS WADKE	22/08/1958	19/09/2011
160	SHRI MP DUDWADKAR	18/09/1959	27/12/2010
161	SHRI RK BHOJANE	05/01/1959	24/08/2007
162	SHRI MM LAD	16/12/1954	21/09/2007
163	SHRI DE KAMBLE	05/03/1963	25/09/2009
164	SHRI JA ZACCHEUS	07/06/1962	30/09/2013
165	SHRI S KULAN	09/07/1962	05/12/2012
166	SHRI CS GAONKAR	13/07/1955	06/01/2006
167	SHRI GB DHIMAN	03/02/1958	05/12/2012
168	SHRI VKS GAUTAM	01/07/1960	27/12/2010
169	SHRI SK AWASTHI	20/09/1960	18/05/2009
170	SHRI VS SURVE	02/09/1955	21/09/2007
171	SHRI VJ RANAWADE	15/03/1957	11/06/2009
172	SHRI VM HINDLEKAR	06/12/1965	26/09/2011
173	SHRI SR KSHETRE	02/06/1955	26/07/2006
174	SHRI GR AYARE	01/01/1955	24/08/2007
175	SHRI SY GAJAKOSH	09/07/1982	30/09/2013
176	SHRI R KUMAR	08/04/1984	30/09/2013
177	SHRI RP GUPTA	15/07/1961	30/09/2013
178	SHRI J SINGH	01/01/1961	17/10/2012
179	SHRI SC HAZRA	01/06/1967	30/09/2013
180	SHRI SK BHALERAO	04/06/1980	30/09/2013
181	SHRI R RANJAN	04/08/1978	24/12/2007
182	SHRI PB SAWANT	06/05/1958	11/06/2009
183	SHRI S JOSEPH	28/05/1965	30/09/2013

1	2	3	4
184	SHRI AK DUBEY	09/08/1967	30/09/2013
185	SHRI VR JAYAPRASAD	29/03/1960	30/09/2013
186	SHRI G VENUGOPAL	30/05/1961	11/06/2009
187	SHRI PJ KULKARNI	08/01/1958	11/06/2009
188	SHRI KA PATIL	10/01/1959	25/05/2012
189	SHRI BS NANDKAR	01/04/1956	27/12/2010
190	SHRI AV KALE	03/06/1960	30/09/2013
191	SHRI US MIRJE	20/09/1960	30/09/2013
192	SHRI R SINGH	13/12/1975	31/03/2007
193	SHRI MA ANSARI	01/01/1958	19/09/2011
194	SHRI VN SAKPAL	03/11/1968	08/11/2011
195	SHRI AY JAGTAP	01/06/1960	30/04/2008
196	SHRI RI NAGTILAK	05/05/1957	30/09/2013
197	SHRI NR PARAB	21/03/1959	30/09/2013
198	SHRI MI DOCTOR	30/10/1959	30/09/2013
199	SHRI JBV RAJA	05/05/1971	30/09/2013
200	SHRI RR BHANDARE	15/06/1968	27/12/2010
201	SHRI BM RAJE	01/06/1955	18/05/2009
202	SHRI DG PANCHAL	06/04/1955	19/09/2011
203	SHRI SP SINGASANE	24/07/1957	30/09/2013
204	SHRI KA GEORGE	23/05/1958	30/09/2013
205	SHRI B CHATERJEE	13/09/1958	30/09/2013
206	SHRI AK SHARMA	26/05/1959	30/09/2013
207	SHRI SB TOMAR	22/04/1964	29/05/2012
208	SHRI KK PUNIA	09/12/1971	30/09/2013
209	SHRI DV UMBRE	01/06/1957	18/05/2009
210	SHRI SG JADHAV	15/10/1954	30/09/2013
211	SHRI RP MISRA	01/01/1956	18/05/2009
212	SHRI RB YADAV	15/05/1968	26/09/2011
213	SHRI HT NIMJE	25/03/1975	18/05/2009
214	SHRI DN SINGH	04/10/1956	29/09/2012
215	SHRI UV PADAVE	02/10/1970	25/05/2012
216	SHRI BS RAO	15/07/1957	27/12/2010
217	SHRI RK PANDEY	01/01/1959	30/09/2013
218	SHRI PB ROUL	02/09/1959	30/09/2013
219	SHRI SK GHOSH	01/04/1964	19/09/2011
220	SHRI IM SAHU	02/03/1970	19/09/2011
221	SHRI DG KASTURE	02/03/1957	26/09/2011

1	2	3	4
222	SHRI CG KOLTE	20/11/1955	27/12/2010
223	SHRI PN MOHANTY	07/06/1978	25/05/2012
224	SHRI HB GURUNG	17/03/1961	16/12/2011
225	SHRI SR SAPALA		30/09/2013
226	SHRI MT SHINGADE	04/08/1976	30/09/2013
227	SHRI VG JOSEY	28/07/1962	26/09/2011
228	SHRI VN SHELAR	19/04/1961	30/09/2013
229	SHRI RB DALVI	30/10/1961	29/05/2012
230	SHRI SB AMBAVANE	15/09/1957	26/09/2011
231	SHRI SH PALLAV	23/07/1958	24/08/2007
232	SHRI NV MANE	26/08/1983	30/09/2013
233	SHRI DK SAHOO	26/06/1980	30/09/2013
234	SHRI VA CHAVAN	26/03/1963	30/09/2013
235	SHRI D RAM	15/10/1970	30/09/2013
236	SHRI AN PRASAD	24/10/1956	19/09/2011
237	SHRI VG DALVI	19/05/1957	25/05/2012
238	SHRI VJ GHARAT	01/06/1959	18/05/2009
239	SHRI VK SINGH	06/01/1962	25/09/2009
240	SHRI KRV NAIR	20/05/1959	27/12/2010
241	SHRI AP SINGH	16/05/1961	30/09/2013
242	SHRI RP BIRDI	11/03/1960	25/05/2012
243	SHRI JL ARYA	10/12/1966	27/12/2010
244	SHRI P VENUGOPALAN	07/02/1956	27/12/2010
245	SHRI SD KADAM	01/06/1959	25/05/2012
246	SHRI DS PARDESHI	05/12/1955	30/04/2008
247	SHRI SV TOPE	16/06/1959	30/09/2013
248	SHRI SG HULAWALE	01/05/1960	30/09/2013
249	SHRI AN CHABUKSWAR	16/10/1963	26/09/2011
250	SHRI SJ LANDE	02/06/1961	30/09/2013
251	SHRI G JOSEPH	05/04/1973	30/09/2013
252	SHRI PV MITHARI	19/06/1973	30/09/2013
253	SHRI S NAVEEN	27/08/1973	30/09/2013
254	SHRI SK VERMA	07/01/1971	30/09/2013
255	SHRI SD TIKE	06/05/1972	26/09/2011
256	SHRI RG CHAVAN	08/11/1961	29/05/2012
257	SHRI S KUMAR	29/04/1960	30/09/2013
258	SHRI LF NAIK	22/07/1961	11/06/2009
259	SHRI DP KAMBLE	01/06/1955	27/12/2010
260	SHRI BC JOSHI	19/10/1959	27/12/2010

1	2	3	4
261	SHRI SA MATHIAS	29/12/1959	30/09/2013
262	SHRI JR DONGRE	01/09/1962	26/09/2011
263	SHRI MI SURVE	09/09/1959	11/06/2009
264	SHRI YR MULIK	03/11/1954	11/06/2009
265	SHRI EA ITTYAVIRAH	04/09/1957	31/10/2012
266	SHRI ML PATADE	01/12/1960	30/09/2013
267	SHRI SW SHELAR	01/05/1961	30/09/2013
268	SHRI MR PAWAR	13/06/1959	30/09/2013
269	SHRI N KUMAR	19/11/1960	11/06/2009
270	SHRI SK SHARMA	12/10/1960	21/09/2007
271	SHRI PV KURIAN	27/05/1959	18/05/2009
272	SHRI CI CASTELINO	14/10/1957	29/05/2012
273	SHRI AR VETKAR	20/02/1961	18/05/2009
274	SHRI R RADHAKRISHNAN	01/04/1958	29/05/2012
275	SHRI KG MURALI	24/06/1961	01/11/2012
276	SHRI YB YADAV	04/01/1955	30/09/2013
277	SHRI TD SINGH	08/01/1959	30/09/2013
278	SHRI M SINGH	17/10/1960	30/09/2013
279	SHRI VM PATKAR	09/11/1960	30/09/2013
280	SHRI HG BHANDARE	05/09/1961	30/09/2013
281	SHRI JP JOSHI	27/12/1961	30/09/2013
282	SHRI M PANDEY	02/01/1962	30/09/2013
283	SHRI MC PRADHAN	13/03/1965	30/09/2013
284	SHRI SS NAIR	26/09/1959	30/09/2013
285	SHRI SN SAKPAL	22/09/1962	30/09/2013
286	SHRI SK SINGH	15/03/1963	30/09/2013
287	SHRI HN YADAV	24/08/1961	21/12/2010
288	SHRI OP TIWARI	10/08/1962	27/12/2010
289	SHRI C SYAMANATH	14/03/1963	30/09/2013
290	SHRI CN RAJU	24/05/1970	25/05/2012
291	SHRI SB BADADE	04/12/1960	29/05/2012
292	SHRI VG KAPSE	24/10/1964	27/12/2010
293	SHRI AM MANE	23/05/1964	30/09/2013
294	SHRI AK RAI	08/07/1958	11/06/2009
295	SHRI HD KAMBLE	01/08/1957	26/09/2011
296	SHRI R KUMAR	25/01/1969	21/09/2007
297	SHRI VS KARANDE	01/06/1956	30/04/2008
298	SHRI MA QURESHI	10/04/1962	01/01/2006

1	2	3	4
299	SHRI S JACOB	08/05/1961	01/11/2012
300	SHRI TV PANKAJAKSHAN	29/11/1956	01/01/2006
301	SHRI PR THAKARE	05/07/1961	21/09/2007
302	SHRI SB BHOGALE	23/06/1969	21/09/2007
303	SHRI EA MENEZES	15/06/1968	01/01/2006
304	SHRI A SINGH	12/10/1963	01/01/2006
305	SHRI KC PARIDA	08/06/1961	21/09/2007
306	SHRI IJ SHAIKH	02/09/1966	21/09/2007
307	SHRI MG PRASAD	15/08/1968	21/09/2007
308	SHRI PK SAHU	05/02/1965	30/04/2008
309	SHRI VK PURI	04/11/1969	21/09/2007
310	SHRI AV JAYACHANDRAN	18/04/1961	21/09/2007
311	SHRI B JACKSON	08/11/1968	21/09/2007
312	SHRI R KUMAR	12/08/1971	21/09/2007
313	SHRI A HUSSAIN	09/04/1964	30/04/2008
314	SHRI RS YADAV	11/09/1970	30/04/2008
315	SHRI N KAMBLE	20/09/1969	30/04/2008
316	SHRI DK GANGWAR	30/09/1968	30/04/2008
317	SHRI NS RANE	05/12/1972	11/06/2009
318	SHRI N BHASKAR	30/07/1968	28/12/2011
319	SHRI SK MISHRA	23/09/1970	11/06/2009
320	SHRI X VAZ	16/03/1963	21/09/2007
321	SHRI AK SINGH	01/01/1962	25/05/2012
322	SHRI HR KAVASIA	11/04/1973	25/05/2012
323	SHRI SK PETER	30/07/1963	29/05/2012
324	SHRI JM FERNANDES	30/07/1959	30/04/2007
325	SHRI RD SAPRE	21/08/1959	30/04/2007
326	SHRI TS KADALE	15/03/1957	30/09/2013
327	SHRI RD YADAV	01/01/1960	30/09/2013
328	SHRI GS CHANDALE	15/07/1960	30/09/2013
329	SHRI R SINGH	26/02/1961	30/09/2013
330	SHRI KS SEBASTIAN	13/11/1962	30/09/2013
331	SHRI RS DAHIYA	02/09/1964	30/09/2013
332	SHRI Y KHAN	20/10/1959	30/09/2013
333	SHRI DS MISRA	25/12/1965	21/09/2007
334	SHRI PB BODHANE	10/05/1961	30/04/2007
335	SHRI SAR OOMER	18/01/1963	25/05/2012
336	SHRI K KUMAR	05/05/1963	21/09/2007
337	SHRI B BALANAYAK	10/06/1971	29/02/2008

1	2	3	4
338	SHRI HV SARMA	21/07/1966	03/03/2008
339	SHRI GS JAMKHANDI	11/03/1969	21/09/2007
340	SHRI NK DUTTA	10/11/1964	29/04/2008
341	SHRI P SAMKUMAR	05/02/1962	29/05/2012
342	SHRI BC HANSDA	15/03/1962	30/09/2013
343	SHRI JR SYED	06/08/1962	26/09/2011
344	SHRI R SHYAMLAL	17/11/1963	27/12/2010
345	SHRI AM SHARMA	19/03/1960	30/09/2013
346	SHRI SS MODAK	20/04/1971	30/09/2013
347	SHRI PV RAJAN	26/02/1961	27/12/2010
348	SHRI K KARAN	01/12/1967	30/09/2013
349	SHRI SK BEHARA	27/06/1969	30/09/2013
350	SHRI DK PATHAK	24/11/1955	26/09/2011
351	SHRI TR PATEL	06/04/1955	31/12/1993
352	SHRI KK DESAI	04/03/1965	30/09/2013
353	SHRI MP RAM	21/09/1969	30/09/2013
354	SHRI SN PANDEY	10/10/1963	25/05/2012
355	SHRI SB TAMBE	15/07/1963	30/09/2013
356	SHRI WA BAIG	03/05/1959	30/09/2013
357	SHRI KV BABU	05/06/1971	30/09/2013
358	SHRI K NALLALAGU	26/05/1964	26/09/2011
359	SHRI DS BISHT	20/08/1975	1/2/2014
360	SHRI SP GANAPATHI	15/04/1966	30/09/2013
361	SHRI VD JOSHI	08/08/1969	25/05/2012
362	SHRI M SINGH	06/06/1960	25/05/2012
363	SHRI G SINGH	20/03/1960	30/04/2008
364	SHRI SP MANE	30/12/1956	30/09/2013
365	SHRI AS RAJPUT	15/04/1962	28/12/2011
366	SHRI DP RAJ	07/05/1960	27/12/2010
367	SHRI VSH PRASAD	22/05/1974	30/09/2013
368	SHRI SK PANDEY	04/07/1971	30/09/2013
369	SHRI RN SINGH	14/09/1956	27/12/2010
370	SHRI J MENDONCA	06/08/1960	29/05/2012
371	SHRI MN SUKUMARAN	14/11/1954	29/05/2012
372	SHRI AK CHATURVEDI	23/07/1979	30/09/2013
373	SHRI AS JADHAV	28/05/1966	26/09/2011
374	SHRI MA BAIG	06/12/1964	30/09/2013
375	SHRI HN JAGDALE	01/06/1956	30/09/2013

1	2	3	4
376	SHRI AD KAMBLE	01/06/1961	26/09/2011
377	SHRI LC YADAV	05/10/1960	30/09/2013
378	SHRI CL KHEDEKAR	01/06/1960	30/09/2013
379	SHRI VR DICHOLKAR	23/11/1970	30/09/2013
380	SHRI BR NARAYANKAR	01/06/1963	19/09/2011
381	SHRI MR MANIAR	03/06/1959	30/09/2013
382	SHRI VS SIJI	11/04/1978	30/09/2013
383	SHRI PS KAKADE	02/06/1967	01/07/2012
384	SHRI YK SHARMA	01/01/1956	27/12/2010
385	SHRI JL KERKAR	29/11/1957	26/09/2011
386	SHRI VY THAVI	24/05/1956	30/04/2008
387	SHRI AG PARANJPE	01/06/1958	18/05/2009
388	SHRI CD KHARAT	28/10/1955	26/09/2011
389	SHRI AS DAHIYA	20/02/1961	27/12/2010
390	SHRI KL BHALERAO	03/05/1961	30/09/2013
391	SHRI AG PATIL	08/12/1964	30/09/2013
392	SHRI AV KAZI	06/07/1967	30/09/2013
393	SHRI CF NUNIS	14/10/1957	11/06/2009
394	SHRI PB DALVI	01/05/1957	11/06/2009
395	SHRI AY MHATRE	26/03/1957	18/05/2009
396	SHRI RB PARKAR	15/02/1959	30/09/2013
397	SHRI MS ASWALE	15/11/1977	30/09/2013
398	SHRI MC KALE	28/12/1957	11/06/2009
399	SHRI RP SHARMA	30/12/1961	29/05/2012
400	SHRI SG GAIKWAD	10/10/1964	29/05/2012
401	SHRI AS CHOUGULEY	01/06/1956	30/09/2013
402	SHRI MP PATIL	20/11/1962	30/09/2013
403	SHRI J RAMDHANI	05/03/1969	30/09/2013
404	SHRI RG KAMBLE	20/10/1960	30/09/2013
405	SHRI B DASS	10/01/1962	30/09/2013
406	SHRI BT SHINDE	01/06/1958	26/09/2011
407	SHRI RT SHINDE	16/08/1960	26/09/2011
408	SHRI AVS RAMAMURTHY	13/05/1968	11/06/2009
409	SHRI VJ GAWARE	21/04/1966	24/08/2007
410	SHRI HC MORE	18/04/1966	30/09/2013
411	SHRI SC YADAV	22/02/1960	25/05/2012
412	SHRI VM HUDALIKAR	27/08/1957	27/12/2010
413	SHRI RB MASURKAR	14/06/1956	30/09/2013
414	SMT LP D'SOUZA	07/12/1963	30/09/2013

1	2	3	4
415	SHRI MG PAWAR	17/11/1961	30/09/2013
416	SMT SA NADKARNI	11/03/1961	25/05/2012
417	SMT VP KANSE	17/11/1960	25/05/2012
418	SHRI SB PEDAMKAR	01/06/1965	19/09/2011
419	SMT MM RODRIGUES	24/09/1961	30/09/2013
420	SHRI RK GODE	07/12/1959	26/09/2011
421	SHRI KC NAYAK	11/01/1965	19/09/2011
422	SHRI K SINGH	04/11/1962	19/09/2011
423	SHRI HD TARE	29/09/1963	18/05/2009
424	SHRI NA HUBLIKAR	15/01/1958	30/09/2013
425	SHRI SB KENI	13/02/1958	30/09/2013
426	SHRI SC PAL	10/12/1964	30/09/2013
427	SHRI P KUMAR	05/07/1977	30/09/2013
428	SHRI B SHARMA	05/05/1978	30/09/2013
429	SHRI BH SHARMA	06/11/1956	26/09/2011
430	SHRI AI BARGIR	19/06/1959	26/09/2011
431	SHRI VKS MENON	23/07/1965	25/05/2012
432	SHRI AJ PATIL	25/04/1960	30/09/2013
433	SHRI PN AUGUSTIAN	30/12/1962	30/09/2013
434	SHRI GS MISHRA	01/10/1962	26/09/2011
435	SHRI BA GAWADE	14/08/1959	21/09/2007
436	SHRI AA RADHAKRISHNAN	05/04/1972	30/09/2013
437	SHRI RN NAGWENKAR	20/12/1959	30/09/2013
438	SHRI VB SAWARDEKAR	17/04/1966	27/12/2010
439	SHRI NB NIRULKAR	11/01/1964	26/09/2011
440	SHRI KB ABHILASH	16/12/1969	30/09/2013
441	SHRI BD JADHAV	30/11/1960	30/09/2013
442	SHRI KP CYRIAC	15/04/1965	27/12/2010
443	SHRI AK NAIR	30/05/1962	27/12/2010
444	SHRI KT SEBASTIN	09/02/1968	30/09/2013
445	SHRI JR JOHNSON	08/03/1969	30/09/2013
446	SHRI MM RASALKAR	17/04/1970	30/09/2013
447	SHRI PG TANAWADE	19/03/1958	26/09/2011
448	SHRI SS BAMNE	04/05/1960	30/09/2013
449	SHRI R SUYAL	12/11/1966	29/09/2012
450	SHRI CM SINGH	15/03/1963	19/09/2011
451	SHRI MK SINGH	26/02/1970	30/09/2013
452	SHRI IP PANDEY	06/01/1960	30/04/2008

1	2	3	4
453	SHRI JR PRABHU	27/08/1977	25/05/2012
454	SHRI SM PANIGRAHI	15/07/1955	18/05/2009
455	SHRI SK PILLAI	14/11/1957	19/09/2011
456	SHRI D GEORGE	23/06/1956	19/09/2011
457	SHRI LR PAL	04/02/1959	27/12/2010
458	SHRI DR DINDIGALA	01/06/1959	30/09/2013
459	SHRI KM NAIR	02/05/1960	30/09/2013
460	SHRI S KUMAR	02/10/1961	30/09/2013
461	SHRI R KUMAR	04/12/1963	30/09/2013
462	SHRI BS YADAV	01/04/1964	30/09/2013
463	SHRI AP BHANGARE	22/10/1980	30/09/2013
464	SHRI AS RAZA	14/01/1972	25/05/2012
465	SHRI RG LONE	18/04/1964	19/09/2011
466	SHRI MP SARANG	30/07/1959	11/06/2009
467	SHRI M DADI	17/06/1982	25/05/2012
468	SHRI KR MURLIDHARAN	09/04/1961	01/12/2011
469	SHRI CBB CHAND	28/04/1974	30/09/2013
470	SHRI PS PARTE	18/12/1966	26/09/2011
471	SHRI OP PANDEY	26/09/1970	29/05/2012
472	SHRI AL MHATRE	15/05/1980	25/05/2012
473	SHRI BB MOHANTY	20/11/1972	25/05/2012
474	SHRI AK GAUTAM	7/12/1975	30/09/2013
475	SHRI M KUMAR	3/12/1971	30/09/2013

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 286, dated 4th November 2015—The President is pleased to make the following promotion :-

Sh. Jagbir Singh to be Sr. Stores Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 09.01.2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- .

Sh. Hitesh Kumar to be Sr. Stores Officer - I, Gp 'A' (Gazetted) in DRDO with effect from 01.01.2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 6600/- .

Sh. C Hari Krishnan to be Sr. Stores Officer - I, Gp 'A' (Gazetted) in DRDO with effect from 01.01.2014 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 6600/- .

Sh. Sudhir Kumar Upreti to be Assistant Director (OL), Gp 'A' (Gazetted) in DRDO with effect from 02.09.2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- .

Sh. N Thrinadha Rao to be Sr. Accounts Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 22.02.2013 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- .

The President is pleased to make the following promotions (Gp 'B') Gazetted to the under mentioned Officers for the Post and Date shown against their names:-

Name	Post of promotion	Estt/Lab	Date of joining	Pay band and grade pay
Sh. R K Nayak	AO	PXE, Balasore	06.08.15	PB-2, GP-4600
Smt. Sangeeta Bhatia	AcO	JCB, Delhi	07.08.15	PB-2, GP-4600

RAJEEV RANJAN SINHA
Dy Director (Pers)

ARMY BRANCH

No. 287, dated 5th November 2015—The President is pleased to permit the under mentioned officers to resign their commission from the Army Service wef dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons :-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

IC NO	RANK	NAME	ARMS/ SER	DATE OF RESIGNATION
IC-60288	MAJ	VIKAS KUMAR	SIGS	20-03-13
IC-64270	MAJ	VISHAL BAHUKHANDI	SIGS	19-02-14
WS-01259	MAJ	INDU DHAMA	AOC	10-02-14 (FN)
IC-66983	MAJ	ARUN KUMAR PANDA	INF	31-12-2012
SS-43443	CAPT	NIKITA ANAL	ASC	12-04-2013 (AN)
IC-67834	MAJ	LALIT KUMAR	ARTY	23-04-2014 (AN)

VANDANA DUBE
Dy Dir
MS/PR

ARMY BRANCH

No. 288, dated 6th November 2015—The President is pleased to permit the under mentioned officers to retire from the Army Service wef dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons:-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

IC NO	RANK	NAME	ARMS/ SER	DATE OF PREMATURE RETIREMENT
1	2	3	4	5
IC-43051	COL	PRABAL PRATAP SINGH	ASC	25-05-2013(AN)
IC-43935	COL (TS)	ARUN PANDEY	INF	24-07-2014(AN)
IC-44247	COL	SANJAY KAPOOR	ENGRS	02-11-2013(AN)
IC-44544	COL	SHIRAZ VARMA	AC	12-05-2011(AN)
IC-44601	COL	MILAN RAMRAO SHINDE	SIGNALS	12-03-2013(AN)
IC-44819	COL	RAJEEV VASANDANI	SIGNALS	02-05-2012(AN)
IC-44903	COL	K MADHU SUDAN RAO	EME	16-10-2010(AN)
IC-45775	COL (TS)	SANJIV BANERJEE	EME	29-11-2014(AN)
IC-46053	COL	PRABUDH SHARMA	AAD	03-09-2014(AN)
IC-47280	COL (TS)	HARMANJIT SINGH CHOPRA	INF	15-02-2014(AN)
IC-47540	COL	ASHOK KUMAR BINJOLKAR	EME	04-08-2014(AN)
IC-48449	COL	MANOJ BHATNAGAR	ENGRS	22-04-2014(AN)
IC-48938	COL (TS)	M RANDHIR SINGH	ENGRS	08-04-2014(AN)
IC-49873	COL	DESH RAJ RAHAR	AOC	23-07-2014(AN)
IC-49923	COL	KETAN BHATT	EME	08-10-2014(AN)

1	2	3	4	5
IC-49946	COL	GP JACOB	ENGRS	06-12-2013(AN)
IC-44974	COL (TS)	VIJAY KUMAR SHARMA	SIGNALS	11-04-2012(AN)
IC-49988	COL	JITENDER SINGH MINHAS	SIGNALS	10-04-2013(AN)
IC-50358	COL	AJAY SONI	AAD	04-07-2014(AN)
IC-51281	COL	RAHUL SHARMA	INF	27-07-2013(AN)
IC-51703	COL	NARESH SHARMA	AOC	18-06-2013(AN)
IC-51969	COL	TARUN SIROHI	AC	08-11-2014(AN)
IC-52032	COL	G GEORGE	AAD	09-10-2014(AN)
IC-52147	COL	SR KIRAN	INF	08-10-2014(AN)
IC-52309	COL	PRAKASH MURTHY R	SIGNALS	30-05-2014(AN)
IC-52396	COL	ABHISHEK AGNIHOTRI	ARTY	13-09-2014(AN)
IC-52480	COL	ROHIT JAGGI	INF	31-12-2014(AN)
IC-52524	COL	GAUTAM SINGH	ENGRS	16-06-2014(AN)
IC-53090	COL	VINOD SOURINGAL	SIGNALS	31-12-2014(AN)
IC-51345	COL	SUDIP MUKERJEE	ARTY	26-10-2013(AN)
IC-45901	COL (TS)	RAJESH NANDAL	ENGRS	07-12-2013(AN)
IC-46089	COL	RANJAN KUMAR SINGH	ENGRS	10-12-2013(AN)
IC-34483	COL (TS)	MOHD. NAIM KHAN	INF	18-12-2010(AN)
IC-40897	COL	SUNIL KUMAR ARORA	ASC	14-09-2013(AN)
IC-42750	COL	KARANJIT SINGH	EME	19-05-2014(AN)
IC-43496	COL(TS)	VIJENDER KUMAR SINGH	AOC	08-04-2014(AN)
IC-45533	COL	ANIL BHATT	AC	22-04-2014(AN)
IC-45584	COL (TS)	SUMMERJIT SINGH RANDHAWA, SM	MECH INF	31-01-2013(AN)
IC-45746	COL(TS)	RAJNEESH KUMAR KAKRIA	EME	30-09-2013(AN)
IC-45910	COL	RAJNEESH KACKER, SM	AC	09-06-2012(AN)
IC-48531	COL	R SREEJETH	SIGNALS	20-02-2013(AN)
IC-48561	COL	GAJENDER SINGH SHEOKAND	ARMY AVN	30-09-2013(AN)
IC-48580	COL	HILARY VAZ	ASC	08-06-2014(AN)
IC-48948	COL	ISAAC MANI PALATHINKAL	ENGRS	08-07-2013(AN)
IC-48961	COL	NKS BRAR	AC	22-10-2012(AN)
IC-50014	COL	WAGH GIRISH GULAB	ENGRS	15-02-2014(AN)
IC-50188	COL	RAJESH GANDHI	EME	12-02-2014(AN)
IC-52465	COL	JOSYULA RENUKA VENKATA MURALIKRISHNA	SIGNALS	31-05-2014
IC-41762	COL	MURALI G	ARTY	21-09-2013(AN)
IC-42122	COL(TS)	RAVINDER CHAUHAN	ARTY	06-07-2013(AN)
IC-43572	COL	VINEET DEV, SM	ARTY	19-02-2013(AN)
IC-44176	COL	VIKRAM GOVIND PANDE	MECH INF	17-11-2013(AN)
IC-44427	COL(TS)	SHRIKANT J GAIKWAD	EME	30-09-2013(AN)
IC-46820	COL	INDERJIT SINGH	SIGNALS	10-07-2013(AN)

1	2	3	4	5
IC-49995	COL	ARVIND KUMAR	EME	07-01-2014(AN)
IC-52322	COL	ACHYUT SINGHAL	ENGRS	07-01-2014(AN)
IC-54686	COL	RUPINDER JIT SINGH HAYER	ARTY	13-04-2013(AN)
IC-42349	COL	V G BHATNAGAR	ARTY	13-07-2012(AN)
IC-47869	COL	RAJU WALIA	ASC	11-04-2012(AN)
IC-48926	COL	R S CHITALE	EME	15-02-2014(AN)
IC-50019	COL	N SRINIVASAN	INT	28-02-2014(AN)
IC-50030	COL	SUMEET PATNEY	AOC	15-04-2014(AN)
IC-50839	COL	RAFIQUL ISLAM MULLICK	ASC	01-12-2012(AN)
IC-52468	COL	DIPANSHU SINHA, SM	INF	27-04-2014(AN)
IC-54904	COL	SANJAY KUMAR SINGH	ASC	12-03-2013(AN)
IC-51088	COL	VINEET TYAGI	SIGNALS	23-09-13 (FN)
IC-48932	COL (TS)	KULWANT SINGH NOTEY	SIGNALS	31-10-13 (AN)
IC-48893	COL (TS)	ROHIT CHAUDHARY	EME	31-10-13 (AN)
IC-45320	COL (TS)	HARDEEP SODHI	EME	04-01-14 (AN)
IC-43363	COL	VK POKHRIYAL	EME	07-12-13 (AN)
IC-48160	COL	GAURAV CHIBBER	AOC	30-11-13 (AN)
IC-50558	COL	AK POKHRIYAL	ENGRS	16-12-13 (AN)
IC-52146	COL	RAVINDER NARWAL	AC	28-12-13(AN)
IC-50874	COL	INDUKURI KRISHNA	SIGNALS	17-11-13 (AN)

The President is pleased to permit the under mentioned officers to retire from the Army Service wef dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons and transfer them to Regular Reserve of Officers (Class X), under SAI 10/S/63 as amended :-

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

IC NO	RANK	NAME	ARMS/ SER	DATE OF PREMATURE RETIREMENT
1	2	3	4	5
IC-50033	LT COL	R KATARIA	AC	23-09-12 (AN)
IC-50964	LT COL	BPS KUSHWAHA	AOC	06-04-13 (AN)
IC-50383	LT COL	YOGESH SARDANA	SIGNALS	11-11-13 (AN)
IC-50054	LT COL	SANJEEV ANAND	INF	02-11-13 (AN)
IC-48959	LT COL	MANOJ MALHOTRA	MECH INF	16-09-13 (AN)
IC-52470	LT COL	RAJAT DUTTA	AOC	07-01-14 (AN)
IC-58989	LT COL	VP CHATURVEDI	SIGNALS	23-11-13 (AN)
IC-53075	LT COL	GURMEET SINGH	ENGRS	07-12-13 (AN)
IC-50015	LT COL	AJAY AHUJA	INF	07-12-13 (AN)
IC-48367	LT COL	PANKAJ MISHRA	INT CORPS	23-12-13 (AN)
IC-46047	LT COL	VIJAY BAHADUR THAPA	ARTY	12-08-2012(AN)

1	2	3	4	5
IC-46922	LT COL	VISHAL SOOD	ARMY AVN	28-02-2014(AN)
IC-51350	LT COL	ANURAG YADAV	INF	07-12-2013(AN)
IC-52300	LT COL	C S BALKRISHNA	EME	06-10-2013(AN)
IC-51736	LT COL	VIKRAM JAITLEY	ARTY	24-07-2013(AN)
IC-52569	LT COL	PRATAP SINGH	INF	31-01-2014(AN)
IC-57864	LT COL	NEERAJ KUMAR	ARTY	05-01-2013(AN)
IC-58650	LT COL	GANESAN S	ARTY	16-02-2013(AN)
SL-04241	LT COL	DARBARI LAL BADYAL	ARTY	15-07-2012(AN)
IC-42859	LT COL	JOY CHOUDHARY	INF	28-04-2014(AN)
IC-45974	LT COL	HS NADKARNEE	EME	18-01-2014(AN)
IC-50804	LT COL	AJAY KUMAR VISHWAKARMA	INF	08-04-2014(AN)
IC-51306	LT COL	RAHUL BHARGAVA	EME	06-11-2013(AN)
IC-51388	LT COL	ANURAG CHAUDHARI	ASC	20-12-2012(AN)
IC-51525	LT COL	ASHUTOSH SINGH	ASC	13-07-2013(AN)
IC-52087	LT COL	SANJAY SHARMA	INF	25-02-2014(AN)
IC-53255	LT COL	C GANESH BABU	SIGS	10-02-2014(AN)
IC-54825	LT COL	ASHISH MANGRULKAR	ENGRS	20-03-2014(AN)
IC-54911	LT COL	THOUDAM BALESHWOR SINGH	EME	06-03-2014(AN)
SL-04231	LT COL	MOHINDER SINGH	GEN SERVICE	07-07-2013(AN)
SL-04336	LT COL	T THIRUPATHI	GEN SERVICE	23-12-2012(AN)
SL-04439	LT COL	MAKVANA AMRUTLAL	EME	05-12-2013
IC-60342	MAJ	GURCHARAN SINGH	ARTY	10-07-2013(AN)
IC-46673	MAJ	RAKSHIT KUMAR	ASC	19-06-2012(AN)
IC-44130	LT COL	DHYAN MAYADAS	ARMD CORPS	02-04-2014(AN)
IC-46696	LT COL	BHARAT JOSHI	AC	02-11-2013(AN)
IC-46807	LT COL	SIDDHARTH TOMAR	AOC	07-06-2014(AN)
IC-47092	LT COL	OM PRAKASH RANA	INF	15-12-2012(AN)
IC-48393	LT COL	JASMINDER S SEKHON	ARTY	05-07-2014(AN)
IC-49518	LT COL	DEEPAK CHIBBER	ENGRS	07-07-2013(AN)
IC-49721	LT COL	MANAN MUKUL	INF	07-12-2013(AN)
IC-50202	LT COL	SUKHDEEP SINGH	INF	16-04-2013(AN)
IC-51052	LT COL	UPENDRA PANDEY	AC	02-11-2013(AN)
IC-51061	LT COL	BASANT KUMAR SINGH	INF	16-02-2013(AN)
IC-51096	LT COL	MANDIGA VIDYASAGAR	ENGRS	07-12-2013(AN)
IC-51339	MAJ	ARUN KUMAR JHA	INT	17-02-2013(AN)
IC-51453	LT COL	BHARAT SHASTRI	ENGRS	25-05-2013(AN)
IC-51519	LT COL	HARDEEP SINGH CHHATWAL	AAD	25-07-2013(FN)
IC-51754	LT COL	R PAVITHRAN	INT	25-05-2013(AN)
IC-51831	LT COL	RAO MOHAMMAD NAJAM	ENGRS	28-09-2013(AN)

1	2	3	4	5
IC-51901	LT COL	ANUJ SRIVASTAVA	ENGRS	10-07-2013(AN)
IC-51992	LT COL	SARABJEET SINGH SAINI	ARMY AVN	15-02-2014(AN)
IC-52330	LT COL	MANU CHAUDHARY	ENGRS	07-06-2014(AN)
IC-52400	LT COL	VIMAL KUMAR SHARMA	EME	27-04-2014(AN)
IC-52442	LT COL	G RAGHURAM	SIGNALS	07-06-2014(AN)
IC-52704	MAJ	GIRISH KASHYAP S	ENGRS	11-05-2013(AN)
IC-52713	LT COL	P MOHAMMED ALI	EME	15-02-2014(AN)
IC-52714	LT COL	GURMIT SINGH	ENGRS	17-11-2013(AN)
IC-56070	LT COL	ROHIT SRIVASTAV	ASC	27-06-2014(AN)
IC-56615	LT COL	HARDEEP SANDHU	ENGRS	01-02-2014(AN)
IC-62400	MAJ	RAJKISHOR KUMAR	INF	23-04-2014(AN)
IC-62874	MAJ	VIKAS DHANKHAR	AOC	31-03-2014(AN)
IC-63325	MAJ	ASHUTOSH KANWAR, SM	EME	16-01-2014(AN)
IC-63333	MAJ	AJAY YADAV	EME	22-04-2014(AN)
IC-63498	MAJ	RAGHUVENDRA SINGH	INF	30-05-2014(AN)
SC-00278	LT COL	ANDREYAS MASIHI	AAD	11-12-2013(AN)
IC-46470	LT COL	UDAI SINGH SOLANKI	INT	02-07-2014(AN)
IC-46790	LT COL	DEVKI NANDAN SHARMA	INF	30-11-2012(AN)
IC-47262	LT COL	PRASANTA KUMAR RAY	ARTY	15-12-2012(AN)
IC-50962	LT COL	SANJEEV KUMAR	ENGRS	02-07-2014(AN)
IC-48227	LT COL	RAJIVE SINHA	ARTY	14-07-2012(AN)
IC-48841	LT COL	SUNIL JHA	SIGNALS	02-07-2013(AN)
IC-50503	LT COL	SHANTNU RISHI	ENGRS	09-02-2014(AN)
IC-50613	LT COL	SATYENDRA VERMA	SIGNALS	07-12-2013(AN)
IC-50938	LT COL	AMIT RASTOGI	SIGNALS	04-01-2014(AN)
IC-50770	LT COL	NAKHRE MOHIT ARVIND	ENGRS	13-07-2013(AN)
IC-50986	LT COL	SANJIV KUMAR TAGGAR	ENGRS	07-12-2013(AN)
IC-51026	MAJ	KISHORE KUMAR	ENGRS	16-09-2013(AN)
IC-51094	LT COL	SANDEEP SINGH BAJWA	EME	02-09-2014(FN)
IC-51469	LT COL	ANIL YADAV	ENGRS	10-07-2013(AN)
IC-51585	LT COL	VIPIN CHOPRA	ENGRS	31-08-2013(AN)
IC-51620	LT COL	GAURAV SAHAI	INF	13-03-2013(AN)
IC-51661	LT COL	MANISH SATISH CHANDRA CHITNIS	INF	28-09-2013(AN)
IC-52230	LT COL	ANUTOSH	AOC	04-08-2014(AN)
IC-52308	LT COL	RADHAKRISHNA SHIBU IV	SIGNALS	31-10-2013(AN)
IC-52479	LT COL	SANDEEP RANA	ASC	30-08-2014(AN)
IC-52665	LT COL	SUJIT KUMAR MONDAL	ARTY	11-10-2014(AN)
IC-52690	LT COL	HIREMATH SANJAY S	ENGRS	07-01-2014(AN)

1	2	3	4	5
IC-52920	LT COL	GAUTAM MOHAN	AC	01-11-2014(AN)
IC-53103	LT COL	RAJSHEKAR AS	SIGNALS	22-04-2014(AN)
IC-54684	LT COL	SANJAY SINGH, VSM	ENGRS	07-12-2013(AN)
IC-54701	LT COL	SREEDHAR VASUDEVAN	AC	19-07-2014(AN)
IC-57809	LT COL	NAND KISHOR	INF	02-07-2013(AN)
IC-58341	LT COL	SRINIVAS MN	ENGRS	24-09-2014(AN)
IC-59900	LT COL	GIRISH BHARADWAJ S	INF	08-11-2014(AN)
IC-60265	LT COL	KUMAR GAURAV	ENGRS	08-11-2014(AN)
IC-63493	MAJ	LOVENDRA SINGH CHAUDHARY	ASC	07-10-2014(AN)
SC-00071	LT COL	NAGARAJAN M	INF	04-08-2014(AN)
V-489	LT COL	BIJINDER SINGH MALIK	RVC	11-12-2013(AN)
V-540	LT COL	HARISH KUMAR TIWARI	RVC	07-12-2013(AN)
SL-4221	LT COL	A AMAL RAJ	GS	08-04-2014(AN)

VANDANA DUBE
Dy Dir
MS/PR

ARMY BRANCH

No. 289, dated 9th November 2015—The President is pleased to permit the under mentioned officer to retire with permission to retain his rank and wearing of uniform :-

TERRITORIAL ARMY

RETIREMENT

Lt Col Charanjit Singh	TA-42568	(Infantry)	31 May 2015.
Lt Col Rashid Ahmed	TA-42123	(Infantry)	30 Nov 2014.

B. B. JOSHI
Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2015

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in